

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 10 | अंक : 316 | गुवाहाटी | रविवार, 16 जून, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

संघ और भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं

पेज 2

अरुणाचल सरकार के मंत्रियों को विभाग आवंटित की गई

पेज 3

नई शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित, प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिकता...

पेज 5

कनाडा के खिलाफ टीम इंडिया का मुकाबला हुआ रद्द

पेज 7

साहित्य अकादमी : हिंदी के लिए गौरव पांडेय को युवा, देवेंद्र कुमार को बाल साहित्य पुरस्कार

नई दिल्ली (हि.स.)। साहित्य अकादमी ने शनिवार को वर्ष 2024 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इनमें 23 युवा लेखकों की पुस्तकों और 24 बाल साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हिंदी के लिए युवा पुरस्कार गौरव पांडेय के कविता संग्रह 'स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी' को और बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र कुमार की पुस्तक 'इक्यावन बाल कहानियाँ' को प्रदान किया जाएगा। संस्कृत अकादमी के कार्यकारी मंडल ने वर्ष 2024 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की। बैठक में 23 युवा लेखकों समाचार को बताया कि अकादमी के



अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल ने वर्ष 2024 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की। बैठक में 23 युवा लेखकों को पुस्तकों और 24 बाल साहित्यकारों के

लिए पुरस्कार अनुमोदित किए गए। इन पुस्तकों को त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए पुरस्कार के लिए चुना है। दोनों पुरस्कारों के लिए पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक तथा 50 हजार रुपए की सम्मान राशि बाद में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। अंग्रेजी के लिए युवा पुरस्कार के. वैशाली की पुस्तक 'होमलेस ग्राइंग अप लेसविन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया', पंजाबी के लिए रमधीर के कविता-संग्रह 'खत तो लिखणो रह गए' तथा उर्दू के लिए जावेद अंबर मिस्वाही

पुरस्कार पाने वाले असम के चार लेखकों को सीएम ने दी बधाई

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के चार लेखकों को साहित्य अकादमी-2024 पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। जिन लोगों को साहित्य अकादमी-2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उनमें बाल साहित्य के लिए रंजू हजारीका, बोडो कविताओं के संग्रह के लिए वर्जिन जेकोवा मुसाहारी, युवा वर्ग के लिए नयनन्योति शर्मा और बोडो भाषा में लघु



कथाओं के संग्रह के लिए रानी बोडो शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया

एक्स हैंडल पर सभी साहित्य अकादमी-2024 पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनकी उपलब्धियों को सराहा। साहित्य अकादमी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य में अनुकरणीय योगदान का सम्मान करते हुए प्रतिष्ठित 2024 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। साहित्य अकादमी ने यह भी घोषणा की कि संस्कृत भाषा

जी-7 नेताओं ने मानव तस्करी रोकने पर दिया जोर



बारी (हि.स.)। जी-7 देशों के नेताओं ने शुक्रवार को शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत में प्रवासन पर ध्यान केंद्रित किया और मानव तस्करी से निपटने तथा उन देशों में निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, जहां से प्रवासी अक्सर जान खतरे में डालकर यात्रा शुरू करते हैं। इटली के दक्षिणी क्षेत्र पुआलिया में एक लक्जरी रिसॉर्ट में आयोजित इस सम्मेलन में अन्य प्रमुख विषयों पर भी चर्चा हो रही है, जिनमें यूक्रेन को वित्तीय सहायता, गाजा युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, चीन की

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर भाजपा ने बनाई हाई लेवल कमेटी

कोलकाता। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा की केंद्रीय टीम बंगाल आ रही है। यह समिति जल्द ही बंगाल का दौरा कर हिंसा की घटनाओं की पूरी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। सांसद व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी के चार सांसदों की समिति गठित की गई है। बिप्लव कुमार देव को समिति का संयोजक बनाया गया है। इस चार सदस्यीय समिति में सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल

कांग्रेस ने चाय जनजाति समुदाय का किया अपमान : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चाय जनजाति समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने आज कहा कि डिब्रूगढ़ में पबन सिंह घाटोवार जैसे चाय जनजाति के कद्दावर नेता होने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने ने कहा कि यह पूरे चाय जनजाति समुदाय का अपमान है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पबन सिंह घाटवार के लिए दुखी हैं, -शेष पृष्ठ दो पर

सीएम ने मुख्य न्यायाधीश के साथ शिवसागर जिला न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया

शिवसागर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय विश्वनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शिवसागर जिला न्यायिक न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। बिष्णुनगर में नवीनिर्मित जिला न्यायिक न्यायालय भवन का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार राज्य में कानूनी बुनियादी ढांचे में सुधार और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिला न्यायालय भवन के उद्घाटन से सभी

देहरादून / नई दिल्ली (एज/हि.स.)। शनिवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टैम्पो ट्रेवलर जिस पर 26 लोग सवार थे, सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में गिर गया, जिससे कम से कम 14 पर्यटकों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज एक बहुत दुखद घटना घटी। रुद्रप्रयाग में एक टैम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ घायलों का इलाज रुद्रप्रयाग में चल रहा है जबकि कुछ को इलाज के लिए हवाई मार्ग से एम्स ऋषिकेश ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुसूह राशि की घोषणा की। नरेंद्र मोदी के हवाले से पीएमओ ने लिखा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग टैम्पो ट्रेवलर दुर्घटना में घायल हुए लोगों से एम्स ऋषिकेश में मुलाकात की। -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में सीएम सरकारी आवास के पास सचिवालय परिसर लगी भीषण आग, मचा हड़कंप

इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सरकारी बंगले के पास मणिपुर सचिवालय परिसर में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए कम से कम चार दमकल गाड़ियों को लगाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि यह इमारत मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले से कुछ सौ मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने बताया कि चार दमकल गाड़ियों मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बता दें कि हाल में

घटना के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। आग लगने की घटना की जांच की जा रही है। अभी यह साफ नहीं है कि आग जानबूझ कर लगाई गई है और फिर आग खुद ही लगी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच इम्फाल के ओल्ड लम्बुलने में स्थित एक खाली घर शनिवार शाम को जल कर रखा हो गया। अधिकारियों ने कहा कि आग के स्रोत का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि खाली घर गोवा के पूर्व मुख्य सचिव, दिवंगत थांगखोपाओ किफोन का था। किफोन की मृत्यु 3 मार्च, 2005 को हुई थी और घर में उनका परिवार रहता था। यह घर -शेष पृष्ठ दो पर

अलकनंदा नदी में टैंपो ट्रेवलर गिरने से 14 पर्यटकों की मौत एलन मस्क ने नौकरी से निकाले कर्मचारियों से वापस मांगा पैसा

शिवसागर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय विश्वनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शिवसागर जिला न्यायिक न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। बिष्णुनगर में नवीनिर्मित जिला न्यायिक न्यायालय भवन का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार राज्य में कानूनी बुनियादी ढांचे में सुधार और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिला न्यायालय भवन के उद्घाटन से सभी

देहरादून / नई दिल्ली (एज/हि.स.)। शनिवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टैम्पो ट्रेवलर जिस पर 26 लोग सवार थे, सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में गिर गया, जिससे कम से कम 14 पर्यटकों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज एक बहुत दुखद घटना घटी। रुद्रप्रयाग में एक टैम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ घायलों का इलाज रुद्रप्रयाग में चल रहा है जबकि कुछ को इलाज के लिए हवाई मार्ग से एम्स ऋषिकेश ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुसूह राशि की घोषणा की। नरेंद्र मोदी के हवाले से पीएमओ ने लिखा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग टैम्पो ट्रेवलर दुर्घटना में घायल हुए लोगों से एम्स ऋषिकेश में मुलाकात की। -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर के मुख्यमंत्री के सुरक्षा काफिले पर भी हमला हुआ था, लेकिन वह बाल-बाल बच गए थे। अब सीएम आवास के पास आग लगने की

वाशिंगटन। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स कॉर्प जैसी कंपनियों के मालिक मस्क ने साल 2022 में ट्विटर को करीब 44 अरब डॉलर में खरीदा था। इसके बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया। इस अधिग्रहण के बाद एक्स के मैनेजमेंट समेत कई कर्मचारियों को छुट्टी कर दी गई थी। छंटनी के दौरान इन सभी को हर्जाना भी मिला था। हालांकि, अब टेस्ला सीईओ का कहना है कि इन लोगों को गलती से ज्यादा पैसे चले गए हैं। इन्हें यह वापस करना होगा। दरअसल, यह विचित्र स्थिति एक्स कॉर्प द्वारा करंसी कनवर्जन के दौरान हुई भूल के चलते बनी है। -शेष पृष्ठ दो पर

पीएम मोदी ने जी-7 समिट में कहा- लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत जनता का आशीर्वाद

रोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां जी-7 शिखर सम्मेलन के एक संवाद सत्र में अपने संबोधन के दौरान लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि भारत के लोगों ने चुनावों में ऐतिहासिक जीत के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, वह लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विशाल पैमाने को रेखांकित करने के लिए कुछ आंकड़े भी साझा किए। यह प्रक्रिया 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में संपन्न हुई। मतों की गिनती चार जून को हुई। उन्होंने कृत्रिम मेधा, ऊर्जा, अप्रीका

और भूमध्य सागर पर एक संवाद सत्र को संबोधित किया। इस सत्र को पोप फ्रांसिस सहित अन्य देशों के नेताओं ने भी संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने इस ऐतिहासिक जीत के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, वह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि यह पूरे लोकतांत्रिक विश्व की जीत है। मोदी ने कहा कि पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद, मित्रों, मैं आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी-7 शिखर सम्मेलन इटली में अपुलिया के बोर्गो एनाजिया में आयोजित किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि

एनडीए सरकार गलती से बनी कभी भी गिर सकती है : खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि एनडीए सरकार गलती से बनी है और इसका गिरना तय है। खड़गे ने 14 जून को बेंगलुरु में कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। यह अल्पमत की सरकार है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह जारी रहे, देश के लिए यह अच्छा हो। हमें देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि वे

किसी अच्छी चीज को जारी नहीं रहने देते। लेकिन हम देश को मजबूत बनाने के लिए सहयोग करेंगे। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिनों पहले एसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने गठबंधनों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गठबंधन सरकार पर खड़गे के आरोपों पर एनडीए सहयोगियों की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया आई और उनसे कांग्रेस नीत सरकारों के प्रधानमंत्रियों के स्कोरकार्ड -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD**, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952


काजीरंगा में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम

काजीरंगा (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमेंत विश्व शर्मा आगामी बाढ़ की स्थिति को लेकर शनिवार को दोपहर काजीरंगा में होने वाली समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री काजीरंगा के आर्या होटल में पांच जिलों के जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ पार्क के आस-पास के जिलों के जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक के अंत में मंत्री केशव महंत, अतुल बोरा और चंद्रमोहन पटवारी के पार्क में प्रवेश करने की संभावना है।

भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त

कामरूप (हिंस)। कामरूप (ग्रामीण) जिले के बाईटटा चाराली पुलिस ने बालीकुची इलाके से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। पुलिस से शनिवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।

आरएसएस ने अफवाहों को किया खारिज, कहा- मप्र के मदरसों में 9417 हिंदू बच्चों को संघ और भाजपा के बीच उर्दू के साथ दी जा रही इस्लाम की तालीम



नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने शुक्रवार को भाजपा के साथ मतभेद की अफवाहों को खारिज कर दिया। इससे पहले पार्टी प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहुमत से चूक जाने के बाद अपने पहले बयान में कहा था कि एक सच्चा सेवक कभी अहंकारी नहीं होता। आरएसएस सूत्रों ने यह जानकारी दी। आरएसएस सूत्रों ने कहा कि संघ और उसके वैचारिक मार्गदर्शक भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं है, जबकि विपक्षी नेताओं सहित लोगों के एक वर्ग ने दावा किया है कि भागवत की टिप्पणी भगवा पार्टी के नेतृत्व या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लक्षित थी। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अटकलें हैं और संघ से हटकर कहीं गई हैं। सोमवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा क एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है। वह काम करते समय मर्यादा का पालन करता है। उसे यह अहंकार नहीं होता कि वह कहे कि मैं ने यह काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। जवाब में आरएसएस सूत्रों ने कहा

क उनके (भागवत) भाषण में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद दिए गए भाषण से बहुत अंतर नहीं था। किसी भी संबंधन में राष्ट्रीय चुनाव जैसी महत्वपूर्ण घटना का संदर्भ देना लाजिमी है। उन्होंने कहा क लेकिन भ्रम पैदा करने के लिए इसका गलत अर्थ निकाला गया और इसे संदर्भ से बाहर ले जाया गया। उनकी अहंकार वाली टिप्पणी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भाजपा नेता के लिए नहीं थी। आरएसएस सूत्रों ने भी अपने राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश

कुमार द्वारा भाजपा के चुनाव प्रदर्शन को लेकर की गई आलोचना से खुद को अलग कर लिया। एक पदाधिकारी ने कहा कि यह उनकी निजी राय है और यह संगठन के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाता। गुरुवार को जयपुर के निकट एक कार्यक्रम में कुमार ने कहा क जिस पार्टी (भाजपा) ने (भगवान राम की) भक्ति की, लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उन्होंने कहा क और जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें मिलकर 234 पर रोक दिया गया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिली सीटों का हवाला दिया। अपनी टिप्पणी पर विवाद उत्पन्न होने के बाद कुमार ने शुक्रवार को कहा कि देश भाजपा के चुनाव प्रदर्शन और नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से खुश है। उन्होंने कहा कि इस समय, ताजा खबर यह है कि जो लोग भगवान राम के खिलाफ थे, वे सत्ता से बाहर हैं और जो भगवान राम के भक्त थे, वे सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा।

सर्वे और उनकी मैपिंग कराने की मांग कर चुके हैं। इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि इन मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं या नहीं। कानूनगो शुक्रवार को मंत्रालय भी पहुंचे। उन्होंने यहां प्रदेश में बाल संरक्षण की स्थिति जानने के 12 विभागों की समीक्षा की। उनके अनुसार, वक्फ बोर्ड ने जानकारी दी है कि प्रदेश में चार यतीम खाने संचालित हैं, लेकिन यह किशोर न्याय अधिनियम के तहत शासन में पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे सभी मुद्दों को लेकर आयोग ने 18 जून को मप्र के मुख्य सचिव को रिपोर्ट के साथ तलब किया है। आयोग ने प्रदेश के डिंडोरी, दमोह में सरकारी मदद से चल रहे मिशनरी आश्रमों और एनजीओ की जानकारी भी मांगी है। मध्य प्रदेश में ऐसे 56 आश्रम, 30 स्कूल संचालित हैं। कानूनगो ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग एक हजार बच्चे एचआईवी से पीड़ित हैं। पॉक्सो

पोंगते और न्योगयोर बने विस पशु तस्करी में शामिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चार तस्कर गिरफ्तार

इटानगर (हिंस)। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग नार्थ के विधायक तेसाम पोंगते को अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष और लिकाबाली के विधायक कारदो न्योगयोर को उपाध्यक्ष के रूप में आज विधान सभा के सभी सदस्यों ने चुना। मुख्य मंत्री पेमा खांडू सरकार के गठन के बाद दो दिवसीय 8वां विधान सभा सत्र के दूसरे एवं अंतिम दिन आज दोनों को मत वोटों के जरिए चुना गया। ज्ञात हो कि बीते कल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए दोनों ने अपने-अपने नामकन प्रत्र दाखिल किए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री चोना मीन, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और सभी विधायकों ने दोनों को बधाई दी।

होजाई (हिंस)।

होजाई जिला के लंका इलाके से पुलिस ने सात मवेशी के साथ ही चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि लंका पुलिस थाना प्रभारी दिवलीप बजिया के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने अभियान चलाकर दो वाहन (एएस-31सी-2575 और एएस-01एनसी-9285) से सात मवेशियों को जब्त किया।

सांसद चुने जाने के बाद पहली बार बिलासीपाड़ा पहुंचे रकिबुल

धुबड़ी (हिंस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रकीबुल हुसैन सांसद चुने जाने के बाद पहली बार आज बिलासीपाड़ा पहुंचे। पदसूत्री प्रतिमा बरुवा पांडेय सभागार में पहुंचे धुबड़ी के नवनिर्वाचित सांसद रकीबुल हुसैन का गर्भजोशी से स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित सांसद का स्थानीय युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, मंडल कांग्रेस कार्यकर्ताओं, बिलासीपाड़ा के रत्नवे डिमांड कमिटी, बिलासीपाड़ा जिला खेल संघ और विभिन्न पार्टी तथा संगठनों के सदस्यों ने उनका गर्भजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर सांसद रकीबुल हुसैन ने अपने संबोधन में कहा कि धुबड़ी संसदीय क्षेत्र में अलग-

अलग प्रकार की समस्याएं हैं। चर्चा के माध्यम से इनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हम मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नद के कटाव को रोकने के लिए काम करना जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री को असम को देश का अग्रणी राज्य बनाने के विभिन्न भागों के साथ ही समान रूप से धुबड़ी संसदीय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी करना होगा। समान सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायकों के साथ ही वाजदे अली, विधायक रेकिबुद्दीन अहमद, विधायक अब्दुस सोबहान अली सरकार और पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

अज्ञात शव



गुवाहाटी। महानगर के जीएमसीएच में एक अज्ञात व्यक्ति को बीमारी की हालत में भर्ती किया गया। 40 वर्षीय उस व्यक्ति की शुक्रवार इलाज के दौरान जीएमसीएच में मृत हो गई। इसकी सूचना भांगागढ़ थाने को दे दी गई है। अब तक किसी ने इसकी पहचान नहीं की है। मृत व्यक्ति को जीएमसीएच के मुर्दाघर में पहचान के लिए रखा गया है।

असम लोकसेवा आयोग
ASSAM PUBLIC SERVICE COMMISSION
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-781022.

No. 86PSC/CON/Exam-20/2023-2024

RESULT

The Assam Public Service Commission hereby declares the result of the 15th June, 2024, the result of the recruitment for the post of **Senior Information & Public Relations Officer under Information, Public Relations, Printing & Stationary Department, Assam** (Adv. No. 18/2023 Dtd. 03/06/2023).

The interview for the said posts was conducted by the Commission on 15th June, 2024. The Commission recommended the following candidates for the said posts in order of merit.

Position	Roll No.	Name of Candidate	Gender	Recommended against vacancy
1	10009	ACHYUT KRISHNA DEKA	M	OPEN CATEGORY
2	10324	RAJAT SEN	M	OPEN CATEGORY
3	10024	ANANYAGOGOI	F	OPEN CATEGORY
4	10330	RANA PRATAP SAIKIA	M	RESERVED

NB : Results may be accessed through the APSC's website www.apscc.nic.in

Principal Controller of Examinations,
Assam Public Service Commission,
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-22

-- Janasanyog /D/ 1621 /24/ 16-Jun-24

पृष्ठ एक का शेष

साहित्य अकादमी : हिंदी के ...

के कहानी-संग्रह *स्टेपनी* को युवा साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं अंग्रेजी में बाल साहित्य के लिए नंदिनी सेनगुप्ता को पुस्तक *द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेरिगन एनिमल्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री*, पंजाबी के लिए कुलदीप सिंह दीप के नाटक *में जलियावाला बाग बोलदा हां* एवं उर्दू के लिए शम्सुल इस्लाम फारूकी के कहानी संग्रह *बर्फ का देस अटाकटिका* को पुरस्कृत किया जाएगा।

पुरस्कार पाने वाले ...

साहित्य पुरस्कारों के लिए नामांकित व्यक्तियों की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी। इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चार असमिया विषय *बिषना-बिषमाई खेल* के लिए चुना गया है। इस उपन्यास ने अपने कथा कौशल और सांस्कृतिक गहराई से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो हजारािका की साहित्यिक क्षमता को दर्शाता है। दूसरे, वर्जिन जेकोबा मुसाहरी को उनके प्रमुख कविता संग्रह *बुधुमा बोयनिबों* के लिए साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके कविता संग्रह अपनी कथा प्रस्तुति की सुंदरता और बोझो संस्कृति और पहचान की गहरी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा, युवा वर्ग में नयनन्योति शर्मा को उनके असमिया लघु कहानी संग्रह *जल कोटा जुई* के लिए सम्मानित करने के लिए चुना गया। शर्मा के कहानी लेखन को मानवीय भावनाओं और सामाजिक गतिशीलता के व्यावहारिक चित्रण के लिए सराहा गया है। चौथा, रानी बोड़ो को बोड़ो भाषा में लिखी उनकी लघु कहानी संग्रह *सैकलुम* के लिए चुना गया। रानी बोड़ो की कहानियों को इस साल के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनकी कहानियां विविध विचारों के साथ यथार्थवाद और कल्पना का मिश्रण करती हैं जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती हैं। ज्ञात हो कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक का अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में मंजूरी दिए गए पुरस्कार। 1 जनवरी, 2018 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच प्रकाशित साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है। चयन प्रक्रिया में एक भाषा-विशेष जूरी शामिल थी। प्रत्येक जूरी में तीन सदस्य थे। वे प्रस्तुत साहित्यिक कृतियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं और सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नामों की सिफारिश करते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक उल्कीर्ण पट्टिका और 50 हजार रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। संबंधितों को यह पुरस्कार एक विशेष समारोह के माध्यम से दिया जाएगा।

जी-7 नेताओं ने ...

वार्लां दक्षिणपंथी इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोप पर प्रवासियों के बोझ को कम करने के तरीके के रूप में अफ्रीकी देशों में निवेश और वित्त पोषण बढ़ाने को लेकर उत्सुक रही हैं। मेलोनी ने गुरुवार को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि इटली एक अन्य महाद्वीप को पर्याप्त स्थान देना चाहता है जोकि हम सभी के भविष्य का आधार है, वह है अफ्रीका, अपनी कठिनाइयों और अवसरों के साथ। यूएनएचसीआर के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अब तक 22,000 से ज्यादा लोग समुद्र के रास्ते इटली पहुंच चुके हैं। 2023 में, 157,000 से ज्यादा लोग आए थे और लगभग 2,000 लोग भूमध्य सागर को खतरनाक तरीके से पार करने की कोशिश करते हुए मारे गए या लापता हो गए। अमेरिका भी अपनी दक्षिणी सीमा पर प्रवासियों की बढ़ती संख्या से जूझ रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कांग्रेस में एक विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके जिसके बाद उन्होंने प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए नई नीतियां पेश कीं। हालांकि, प्रवासी अधिकार अधिकारियों ने नई नीतियों के खिलाफ गुरुवार को मुकदमा दायर किया, और यह स्पष्ट नहीं है कि वे अमेरिकी अदालतों में कानूनी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे या नहीं। शिखर सम्मेलन में पहुंचने के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि प्रवासन से निपटना एक आम चुनौती है। इटली ने मेलोनी की प्रवासन व विकास पहल पर जोर देने के लिए कई अफ्रीकी नेताओं को भी आमंत्रित किया है, जिनमें अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्दुल मजिद तबून, केन्याई राष्ट्रपति विलियम रुटो और ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैसर सैयद शामिल हैं। जी-7 नेताओं के बीच कुछ मतभेद दिखाई दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल

मैक्रों ने शिखर सम्मेलन के अंतिम घोषणापत्र के मसौदे में गर्भपात का उल्लेख न होने पर खेद व्यक्त किया।

बंगाल में चुनाव ...

और सांसद कविता पाटीदार को शामिल किया गया है। समिति के गठन के साथ ही भाजपा ने बंगाल में चुनाव बाद हो रही हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि भारत के 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा के साथ-साथ तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन बंगाल को छोड़कर कहीं भी राजनीतिक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो चुनाव के बाद हिंसा की चपेट में है, जैसा कि वहां 2021 के विधानसभा चुनाव के भी बाद देखा था। भाजपा का दमदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और इसके सहयोगी दलों द्वारा राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 90 से 100 सीटें जीतेंगी। लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 14 में से नौ सीटों पर विजयी रही, जबकि सहयोगी दल असम गण परिषद और यूपीपीएल ने से एक-एक सीट पर जीत हासिल की। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने असम में 93 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। अकेले भाजपा ने 76 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जबकि अगप और यूपीपीएल ने क्रमशः 10 और 7 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की इस जीत का सिलसिला 2026 में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि उनकी सरकार लगातार जनहित में एक से बढ़कर एक कार्य कर रही है।

कांग्रेस ने चाय ...

क्योंकि चाय जनजाति से एक कांग्रेस नेता होने के बावजूद उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया और लुरिनज्योति गोगोई को टिकट दे दिया गया। भाजपा ने चाय जनजाति के नेता कामाख्या प्रसाद तासा को सांसद बनाया, लेकिन घटवरा सांसद नहीं बने। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा का दमदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और इसके सहयोगी दलों द्वारा राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 90 से 100 सीटें जीतेंगी। लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 14 में से नौ सीटों पर विजयी रही, जबकि सहयोगी दल असम गण परिषद और यूपीपीएल ने से एक-एक सीट पर जीत हासिल की। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने असम में 93 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। अकेले भाजपा ने 76 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जबकि अगप और यूपीपीएल ने क्रमशः 10 और 7 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की इस जीत का सिलसिला 2026 में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि उनकी सरकार लगातार जनहित में एक से बढ़कर एक कार्य कर रही है।

मणिपुर में सीएम...

कुकी इन कॉम्प्लेक्स के बगल में स्थित है, जो इम्फाल के बाबूपारा में मणिपुर के मुख्यमंत्री के आवास के सामने है। यह घटना शनिवार शाम करीब 5:30 बजे हुई। मणिपुर में चल रहे संकट के फैलने के बाद से ही निवासी घर छोड़कर जा चुके थे। मणिपुर की अग्निशमन सेवाएं मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई। चूँकि घर की छत गैल्वनाइज्ड टिन के साथ लकड़ी से बनी थी, इसलिए शीबल जिले से आए अग्निशमन कर्मियों को इसे बुझाने में एक घंटे से अधिक समय लगा। मणिपुर अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि चूँकि यह घर एक साल से ज्यादा समय से खाली पड़ा था, इसलिए आग बुझाना और उस पर काबू पाना मुश्किल था। उन्होंने बताया कि आग का स्रोत अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह खाली घर इम्फाल के बाबूपारा में स्थित नए मणिपुर सचिवालय कार्यालय भवन के ठीक पीछे स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से हिंसा की चपेट में है। इसके पहले अज्ञात हमलावरों ने मोरेह शहर के पास नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल को इमारत में आग लगा दी थी। इमारत का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ था। बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, जो कुछ पहाड़ी जिलों में प्रमुख हैं। अब तक 220 लोगों की जान जा चुकी है और कम से कम 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं।

सीएम ने मुख्य न्यायाधीश...

न्यायिक कार्यवाही एक ही छत के नीचे पूरी हो जायेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वही मामला जल्द सुलझ जाएगा। शिवसागर में नया जिला न्यायालय भवन राज्य के कानूनी बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण है। डॉ. शर्मा ने कहा कि इसका उद्देश्य शिवसागर और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को

सुलभ और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने पूरे असम में कानूनी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए जा रहे हैं। इनमें शिवसागर में नया जिला न्यायालय भवन आज जनता को समर्पित किया गया। यहां सभी कानूनी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कानूनी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही छत के नीचे शिवसागर जिला न्यायालय का उद्घाटन होने से कानूनी कार्यवाही जल्दी निपट जाएगी। मामलों का बैकलॉग कम हो जाएगा और न्यायपालिका के कुशल कामकाज के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा।

अलकनंदा नदी में ...

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घायलों को उचित इलाज मिलना बहुत जरूरी है। उनके परिवरों को एक-एक कर सूचित किया जा रहा है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं कि उन्हें सभी आवश्यक उपचार मिलें... मैंने इस (दुर्घटना) की जांच का निर्देश दिया है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हादसे पर दुःख जताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवरों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवरों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और एमडीआरएफ की टीमों राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शनिवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में यात्रियों से भरे एक वाहन के अलकनंदा नदी में गिरने की दुर्घटना पर दुःख जताया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवरों और घायलों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार दुःख है। वे शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हैं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हैं। हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखंड ने कहा कि सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु के बारे में सुनकर दुःख हुआ। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवरों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।

एलन मस्क ने ...

कंपनी का कहना है कि करंसी कनवर्जन यानी अमेरिकी डॉलर को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में बदलने में हुई गलती के चलते ज्यादा पैसा नौकरी से निकाले गए ऑस्ट्रेलिया के कर्मचारियों को चला गया था। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, कंपनी ने इन छह कर्मचारियों से पैसा वापस मांगा है। साथ ही पैसा वापस न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। हाल ही में एलन मस्क ने टेक्सा में भी बड़े पैमाने पर छंछनी की थी।

लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक...

भारत में आम चुनाव में 2,600 से अधिक राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया तथा 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 50 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयुक्त हुईं तथा डेढ़ करोड़ मतदान कर्मचारी तैनात किए गए और लगभग 97 करोड़ मतदाता व जिनमें से 64 करोड़ लोगों ने अपने मतानधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के सर्वव्यापी उपयोग से चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी। प्रधानमंत्री ने कहा क इतने बड़े चुनाव के नतीजे भी कुछ ही घंटों में घोषित कर दिए गए। मोदी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्व में लोकतंत्र और मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने कहा क यह मेरा सौभाग्य है कि भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया

है। पिछले छह दशकों में भारत में ऐसा पहली बार हुआ है।

एनडीए सरकार गलती...

उपलब्ध कराने को कहा गया। जेडी(यू) ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारों के इतिहास को खंगाला और पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल का हवाला देते हुए खंडों की आलोचना पर सवाल उठाया। बिहार के पूर्व आईपीआरडी मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने खंडों की बृद्धि पर सवाल उठाया और उनसे पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस नीत सरकारों के स्कोरकार्ड के बारे में पूछा। उन्होंने याद दिलाया कि 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास भी भाजपा की मौजूदा सीटों के बराबर ही सीटें थीं। बहुमत हासिल न करने के बावजूद कांग्रेस ने नरसिंह राव के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनाई। राव की राजनीतिक राजनीतिक चालों ने आखिरकार उनकी सरकार की स्थिति मजबूत की और दो साल के भीतर उसे बहुमत में पहुंचा दिया। एनडीए सरकार पर खंडों की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा क एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। हमने 292 लोकसभा सीटें जीती हैं... मैं मल्लिकार्जुन खड्गे को विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह देता हूँ। अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष हैं और एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं। केंद्रीय मंत्री जीवन राम मांडवी ने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि गलती से उन्हें कुछ ताकत मिल गई है। मांडवी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो केंद्र में एनडीए का सहयोगी है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा को कुल 240 सीटें मिलीं, जो बहुमत के आंकड़े 272 से कम थी, और पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। जिन चार सहयोगियों के समर्थन से भाजपा ने रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने में मदद की, वे हैं एन चंद्रबाबु नायडू की टीडीपी, जिन्होंने 16 सीटें जीती हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू (12), एकनाथ शिंदे की शिवसेना (7) और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास ने (5) सीटें जीती हैं।

विस चुनाव भी साथ ...

विधानसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। उद्धव ने बताया कि इस संदर्भ में आज सहयोगी दलों की पहली बैठक हुई है। इसमें यह तय किया गया है कि सभी घटक दल राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों का जायजा लेंगे और उसके बाद उम्मीदवार तय करने पर चर्चा करेंगे। उद्धव ठाकरे मुंबई में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर राकांपा(एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता बालसाहेब थोरात, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और जयंत पाटिल उपस्थित थे। उद्धव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी धर्म एवं वर्ग के मतदाताओं ने लोकशाही बचाने के लिए मतदान किया है। राकांपा (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 18 सभाएं कीं और रोड शो भी किए। उन जगहों पर हमारे उम्मीदवारों को फायदा हुआ। शरद पवार ने मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वह विधानसभा चुनाव में जितनी अधिक सभाएं करेंगे, हमें उतनी ही फायदा होगा। विधानसभा चुनाव में सभी सहयोगी साथ मिलकर चुनाव की तैयारी करेंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में छोटे-बड़े का कोई मतभेद नहीं है। आज प्राथमिक बैठक हुई है। इसके आगे भी सहयोगी दल बैठक करेंगे और मूल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सहयोगी दल आपस में मिलकर राज्य की सभी सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार का चयन करेंगे और उसे विजड़ बनाने का प्रयास करेंगे।

दिनदहाड़े बदमाशों ने...

से अफरातफरी मच गई, जहां कई कार्यालय व व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और कर्महारी नगर पालिका भवन भी पास में ही स्थित है। पुलिस ने दो मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों का पता लगाने के लिए नाकाबंदी की है। घटनास्थल के पास ही बेलघरिया थाना भी स्थित है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सुकान्त मजूमदार ने कहा कि यह घटना तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासन के तहत राज्य में बढ़ती अराजकता को साबित करती है, जहां बंदूकधारी बदमाश कौलकाता और इसके बहार इलाकों में लोगों पर हमला कर रहे हैं।

नई शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित, प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिकता का समावेश : राज्यपाल

जयपुर /अजमेर (हिस)। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय का एकादश दीक्षांत समारोह शनिवार को राज्यपाल एवं कलराज मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दीक्षांत उद्बोधन दिया। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि दीक्षांत विद्यार्थियों के लिए नव जीवन में प्रवेश का उत्सव है। यह वह अवसर है जब विद्यार्थी अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास में करने के लिए तैयार होता है। मिश्र ने कहा कि शिक्षा की सार्थकता इसमें नहीं है कि उससे हम कोई पद, नौकरी या अन्य किसी तरह की भौतिक सफलता प्राप्त कर लें। शिक्षा की सार्थकता इसमें है कि हम रूढ़ियों



से मुक्त होने की ओर अग्रसर हों। उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि समाज को रूढ़ियों से मुक्त कर वेदों का सहज, व्यावहारिक भाष्य करने का महती कार्य उन्होंने ही पहले पहल देश में किया था। वह व्यक्ति नहीं अपने आपमें संस्था थे। वेद की ओर वापस चलो का नारा देते हुए उन्होंने राष्ट्र को रूढ़ियों और कुरीतियों से निकालकर आदर्श जीवन मूल्यों के जरिए आगे बढ़ने का संज्ञादा

किया। उनके जीवन दर्शन में उस नैतिक शिक्षा पर ही अधिक जोर दिया गया है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिक्षा पर विचारों को आज के संदर्भों में सभी स्तरों पर अपनाते आलोचक मे हम स्वामीजी के विचारों से पाठ्यक्रमों को इस तरह से नया रूप दे कि विद्यार्थी सर्वांगीण विकास की राहों पर तेजी से आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की नई शिक्षा

नीति पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान के आलोक में से पाठ्यक्रमों के निर्माण पर जोर देती है जिससे विद्यार्थी हमारी संस्कृति से जुड़े एवं जीवन मूल्यों में आधुनिक विकास को और अग्रसर हो सके। इस नीति में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। रोजगारोन्मुखी नवाचारों को अपनाने की बात है। ताकि विद्यार्थी अपने परिवेश को समझते हुए राष्ट्र को संपन्नता की ओर अग्रसर कर सकें। उन्होंने ने कहा कि उभरती डिजिटलीकृत दुनिया में नए आविष्कारों और नवाचारों के साथ-साथ पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में असीमित वृद्धि की संभावना है। इस क्षेत्र में लगभग पांच करोड़ नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय इस दिशा में ध्यान देते हुए उसे पाठ्यक्रम निर्मित करे जिससे आतिथ्य उद्योग में हम बेहतर मानव संसाधन तैयार कर सकें। मिश्र ने कहा कि यह समय हम-सबके लिए आजादी के अमृतकाल की

ओर अग्रसर होने का है। युवा शक्ति भारत के भविष्य की उज्वल राहों की संवाहक बनें। इसके लिए यह जरूरी है कि मेक इन इंडिया की दिशा में हम आगे बढ़ें। उसे स्थानीय उत्पाद तैयार करने की ओर अग्रसर हों जो विश्वस्तर पर निर्यात हो सकें। हम शिक्षा के जरिए अपनी उच्चतम क्षमताओं का विकास करें। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध का देश का उत्कृष्ट केंद्र बनें। यहां से पाठ्यक्रम तैयार हों जिससे युवाओं के लिए भविष्योन्मुख अधिकाधिक मार्ग प्रशस्त हो सकें। युवा रोजगार पाने की बजाए देने के लिए तैयार हो सकें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दीक्षांत भाषण में कहा कि 21वीं सदी का इमर्जिंग इंडिया न केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से महाशक्ति बनना चाहता है, बल्कि विश्वगुरु के रूप में उभरने का संकल्प रखता है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कुछ निश्चित मूल्यों का होना आवश्यक है।

राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ूंगी : बीमा भारती

पूर्णिया (हिस)। मैं राजद की प्रत्याशी के रूप में रूपांती विधासभा उपचुनाव लड़ूंगी। लोगों की बातों पर जाना बेकार है। उक्त बातें शत्रु में उठ रहे अटकलों को समाप्त करते हुए पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक बीमा भारती ने शनिवार को यहां कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में क्या-क्या अटकलें लगाई जा रही हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह राजद की सिपाही हैं। राजद के टिकट पर ही रूपांती विधानसभा से उपचुनाव लड़ूंगी। यह पूछने पर कि यह सीट पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआई के पास थी, सीपीआई के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहां महागठबंधन से सीपीआई का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इस बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। यहां राजद का ही प्रत्याशी होगा तथा राजद के प्रत्याशी के रूप में वह चुनाव लड़ूंगी। यह भी पूछने पर कि चर्चा है कि राजद के सीट नहीं होने तथा सीपीआई के सीट हो जाने पर यहां से उनके पति अवधेश मंडल या उनकी पुत्री रानी भारती स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगी। उन्होंने इन सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। वह कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। पूर्व विधायक बीमा भारती के द्वारा कहीं बातों से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि वह राजद से चुनाव लड़ने जा रही हैं, बाकी सभी बातें अफवाह हैं। वैसे राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कब, क्या, किधर कौन सा पासा पलट जाएगा कदना मुश्किल है।



ट्राई साइकिल के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही दिव्यांग महिला



भागलपुर (हिस)। बैट्री चालित रिक्शा के लिए एक दिव्यांग महिला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटने के लिए विवश हैं। शनिवार को भी दिव्यांग महिला अपने पति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पति-पत्नी बीते दो महीने से जिलाधिकारी के कार्यालय की चक्कर लगा रहे हैं। कई बार उन्होंने लिखित शिकायत भी की है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पत्नी 80 प्रतिशत विकलांग है। पति मजदूरी कर घर का भरण पोषण करते हैं। अगिला हफ्ते में घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए थे। सरकार के तरफ से दिए गए ट्राई साइकिल भी इस हादसे का शिकार हुआ था। जो पूरी तरह जलकर खाक गया। अब महिला को आने जाने को कोई साधन नहीं है। ट्राई साइकिल के लिए विकलांग महिला पिछले दो महीने से जिला अधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रही है। लेकिन अभी तक उसे ट्राई साइकिल मुहैया नहीं कराया गया है। भीषण गर्मी के रहने वाले पंजाब मंडल के घर में 6 माच को शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग लग गई थी। हादसे में घर में सारे सामान जलकर राख हो गया था। उसी हादसे में विकलांग महिला अनीता देवी का ट्राई साइकिल भी पूरी तरह जल गई थी।

स्वेच्छा से तबादला कराए प्राइमरी स्कूल टीचरों को नहीं मिल सकता पे प्रोटेक्शन का लाभ : हाईकोर्ट

प्रयागराज (हिस)। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिलों में स्वेच्छा से तबादला कराकर आए प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पे प्रोटेक्शन (वेतन सुरक्षा) का लाभ देने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी एक साथ हाट एंड कोल्ड खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंतरजनपदीय तबादला नीति के अंतर्गत याची अध्यापकों ने इस शर्त पर तबादला लिया कि वे प्रोन्नति नहीं लें और सहायक अध्यापक के निचले पायदान पर कार्य करेंगे। बाद में याचियों ने अपने समय के कार्यरत अध्यापकों के बराबर वेतनमान की यह कहुते हुए मांग की कि उन्हें समान स्थिति के अध्यापकों से कम वेतन दिया जा रहा है और पदोन्नति नहीं दी जा रही है। याची अध्यापकों की याचिका पर एकलपीठ ने मांग स्वीकार कर जो राहत नहीं पा सकते थे, वह भी प्रदान करने का आदेश दिया। जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया तथा दुबारा सुनकर निर्णय लेने का निर्देश



दते हुए पत्रावली वापस भेज दी है तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी मजु को निर्देश दिया है वह 4 सप्ताह में मूल याचिका में जवाब दाखिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति अनिस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी उग्र इलाहाबाद एवं अन्य की तरफ से

दाखिल विशेष अपील को मंजूर करते हुए दिया है। विशेष अपील पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता रामानंद पांडेय का तर्क था कि जिस अभय कुमार पाठक केस के आदेश का सहारा लेकर एकलपीठ ने प्रोन्नति व चयन वेतनमान देने का आदेश दिया है, उस आदेश में भी कोर्ट ने ऐसी

राहत नहीं दी है। याचियों ने स्वयं ही अपनी पसंद के जिले मजु में यह कहुते हुए तबादला लिया था कि वे पदोन्नति व सहायक अध्यापक के पद पर काम करेंगे। हालांकि उनमें से कुछ प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक थे और सहायक अध्यापक पद पर अपने नए जिले में कार्यभार संभाला। अंतरजनपदीय तबादला नीति की यह शर्त भी है। इसलिए अब वे समान स्थिति के अध्यापकों के समान लाभ की मांग नहीं कर सकते। एकलपीठ ने विपिन कुमार केस के आदेश पर विचार नहीं किया। इसलिए एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाय। कोर्ट ने कहा कि याचीगण टीचर एक साथ गर्म व ठंडा नहीं ले सकते। साथ ही यह मांग विबंध न्याय (रेसजुडिकेट) के सिद्धांत के विपरीत है। विपिन कुमार केस में वेतन संरक्षण का आदेश इस मामले में लागू नहीं होगा। याची विपक्षियों ने स्वेच्छा से पदोन्नति व चयन वेतनमान छोड़ने का फैसला लेकर तबादला स्वीकार किया है। अब उन्हें अन्य समान अध्यापकों के बराबर चयन वेतनमान व प्रोन्नति की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हर प्रोजेक्ट के लिए तय हों नोडल अधिकारी, सप्ताह में मिले प्रोग्रेस रिपोर्ट : मुख्यमंत्री रामगढ़ में बकरीद पर सतर्क रहे पुलिस, रखे पैनी नजर : उपायुक्त

गोरखपुर (हिस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी तय करते हुए उनसे साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट ली जाए। हर प्रोजेक्ट की वरिष्ठ अधिकारी पंद्रह दिन पर समीक्षा करें, साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर माह में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए। हर परियोजना को एक समय सीमा तय होती है और उसे उसी अवधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। सीएम योगी शनिवार दोपहर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एनेक्सी भवन में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, जीडीए, ग्रीड समेत विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं

के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, वहां जमीन की रजिस्ट्री में तेजी लाई जाए और मुआवजा वितरण भी जल्द से जल्द किया जाए। इसमें किसी तरह की स्थितिलता अक्षम्य होगी। मुख्यमंत्री ने कहा निर्माण कार्य को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नोडल अधिकारी हर सप्ताह की प्रगति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं की मांनिटरिंग करने के लिए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी नहीं चाहिए। अधिकारी हर माह जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराए, उनसे मिलने वाले सुझावों पर भी ध्यान दें। सीएम योगी ने कहा कि बरसात का समय सन्निकट है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा

कि बरसात होने पर कहीं भी जलभराव न होने पाए। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छा काम हुआ है, इसे लगातार उत्कृष्टता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। समय रहते सभी नालों की सफाई का काम पूरा करने का निर्देश देने के साथ सीएम ने कहा कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए गोड्डोइया नाला परियोजना पर सतत ध्यान दिया जाए। बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ बचाव के कार्यों में और तेजी लाई जाए। अधिकारी, जनप्रतिनिधियों को साथ ले जाकर बंधों की स्थिति का जायजा लें। बेहतर कार्य के लिए उनसे सुझाव लें। सीएम ने कहा कि समन्वित प्रयासों से जापानो इंसेफेलाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (ईईएस) पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया

गया है। तैयारी ऐसी बनी रहे कि आगामी मानसून सत्र में भी इस पर नकेल कसा रहे। मुख्यमंत्री ने एकला बांध प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की और यह मिथ्यावाकी वन विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पेयजल, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं पर संवेदनशीलता से ध्यान दें। शहरों और गांवों में निर्बांध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारी जनता दर्शन में नियमित और संवेदनशील ढंग से सुनवाई करें। आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण करने के साथ शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह चेतावनी भी दी कि नागरिक समस्याओं के निस्तारण में शिथिल अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राजम ? (हिस)। बकरीद पर्व को लेकर शनिवार को डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक डॉ बिमल कुमार की उपस्थिति में जिला समाहरणालय के सभागार में बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम डीसी एवं एसपी ने सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन करने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की गई तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही सभी को पर्व के दौरान सतर्क रहकर अपने-अपने क्षेत्रों में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने पीसीआर एवं पैंथर की टीम को संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं किसी भी प्रकार की अफवाह सामने आने पर त्वरित इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को देने एवं अफवाहों को दूर करने के

लिए आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डीसी ने सभी अधिकारियों को पूरे पर्व के दौरान अलर्ट मोड पर रहकर कार्य करने का निर्देश दिया। पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर डीसी एवं एसपी ने प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी, उपयोग आदि पर विशेष ध्यान देने सहित इस संबंध में किए जाने वाले कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही जिला संपुपालन पदाधिकारी ने भी प्रतिबंधित पशुओं के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को लेकर आवश्यक जानकारियां दी। डीसी एवं एसपी ने पर्व के दौरान अस्माजिक तत्वों व सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। डीसी ने अधिकारियों को सोशल मीडिया एवं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने का निर्देश दिया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रोग्रामर के 352 पदों पर निकाली भर्ती

जयपुर (हिस)। राजस्थान लोक सेवा आयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर के पदों में बढ़ोतरी की गई है। पदों में 50 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद फ्रि से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अस्थायी प्रोग्रामर के कुल 352 पदों के लिए 15 जून से 04 जुलाई 2024 को रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 25 जनवरी को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर के कुल 216 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए

थे। विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप कुल 352 पदों के लिए 15 जून से चार जुलाई को राति 12.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल से लाइन कर सिटीजन एप में उपलब्ध रिक्तमेट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा।

जम्मू कश्मीर में ताजा आतंकी घटनाएं सीमा पार बैठे आकाओं की हताशा भरी कोशिश : डीजीपी

जम्मू (हिस)। पुलिस महानिदेशक आरआर स्वैन ने शनिवार को कहा कि हाल की आतंकी घटनाएं सीमा पार बैठे आकाओं द्वारा कश्मीर में आतंकी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अपनी दुकानें चालू रखने की हताशा भरी कोशिश है। उन्होंने कहा कि दुश्मन सेना को हराया जाएगा। डीजीपी स्वैन कटुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सुखाल गांव के दौरे के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे, जहां मंगलवार और बुधवार को 15 घंटे से अधिक समय तक चले अभियान में दो संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और एक

सीआरपीएफ जवान बलिदान हो गया था। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे झूठे झंडे न उठाए और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करने से पहले आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में जानकारी की जांच करें ताकि हम वही रहें, जहां हमें होना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि जब आप किसी खतरे या चुनौती के बारे में बात करते हैं तो आप देखते हैं कि यह कितना गंभीर या बड़ा है। चुनौती सीमा पार से आ रही है और आतंकवादी आकाओं ने यह निर्णय लिया है कि वे इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवादी आकाओं ने देखा है कि

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं, क्योंकि कश्मीर में आतंकी ढांचे को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिनकी रोजी-रोटी इसी से चलती है, वे इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? पुलिस प्रमुख ने कहा कि टेकेदार (हैंडलर) सीमा पार बैठे हैं और अपनी दुकानें चालू रखने के लिए वे विदेशी भाड़े के सैनिकों को यहां भेजते हैं। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन के साथ स्वैन ने कटुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सुखाल गांव में चल रहे तलाशी अभियान के लिए तैनात पुलिसकर्मियों से

बातचीत की। डीजीपी ने हीरानगर थाने का भी दौरा किया और पुलिसकर्मियों को संबोधित किया तथा हाल ही में हुई मुठभेड़ में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आतंकवादी बड़ी संख्या में नहीं हैं। वे चूहों की तरह हैं लेकिन वे मौजूद हैं। उनके पास बंदूकें हैं और वे इनका इस्तेमाल निर्दोष लोगों पर कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को भीरोसा दिलाया कि उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम न केवल उन्हें खत्म करने के लिए बल्कि हमें कम से कम नुकसान हो, इसके लिए भी ऐसी रणनीति अपनाएंगे।

काशी में योग की बयार, मंत्री, विधायक, डीएम ने एक साथ योग कर दिया संदेश

वागणसरी (हिस)। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के एक सप्ताह पहले से ही आदियोगी भगवान शंकर की नगरी में योग की बयार बहने लगी है। जिला प्रशासन की पहल पर शुक्रवार को नमोघाट पर विधिवत योग सप्ताह की शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार में मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी की पहल पर शुक्रवार को नमोघाट पर विधिवत योग सप्ताह की शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार में मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। यह शरीर को रोगमुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान दुनियाभर के लोग सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन योगाभ्यास करते हैं। विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कार्यक्रम में जिलाधिकारी एस. राजलालम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने भी जनप्रतिनिधियों के साथ योग किया। अफसरों के अनुसार योग सप्ताह 15 से 21 जून तक चलेगा। हर दिन अलग-अलग स्थलों पर योग और विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी डॉ. सरोज शंकर राम के अनुसार योग प्रशिक्षक अभय यादव, रक्षा कौर, मनीष पांडे ने सभी को योग प्रोटोकॉल कराया, योग के फायदे बताएं व योग प्रोटोकॉल का संचालन डॉ. दीपिका देवे ने किया। योग कार्यक्रम में सहयोगी संस्था गोवर्धन पीठ के समस्त प्रभारी व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 597 लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन पारस यादव ने किया।

सीएम नीतीश की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल में भर्ती

पटना (हिस)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। शनिवार की सुबह खुद के स्वास्थ्य में हो रही समस्या को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार सुबह जब सो कर उठे तो उनके हाथ में दर्द हुआ, जिसके इलाज के लिए सीएम पटना के मेदांता हॉस्पिटल गए हैं। मेदांता अस्पताल के ऑर्थो डिपार्टमेंट में उनका इलाज किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार के अनुसार योग प्रशिक्षक अभय यादव, रक्षा कौर, मनीष पांडे ने सभी को योग प्रोटोकॉल कराया, योग के फायदे बताएं व योग प्रोटोकॉल का संचालन डॉ. दीपिका देवे ने किया। योग कार्यक्रम में सहयोगी संस्था गोवर्धन पीठ के समस्त प्रभारी व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 597 लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन पारस यादव ने किया।

मायुम ने 50 बार से अधिक रक्तदान करने वाले दो युवाओं को किया सम्मानित



पूर्वी चंपारण (हिस)। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच मोतिहारी शाखा के अध्यक्ष यमुना सीकरिया के द्वारा मंच के दो सदस्य दीपक अग्रवाल व रवि अग्रवाल को रक्त वीर सम्मानित किया गया। दोनों रक्त वीरों ने करीब 50-50 बार रक्तदान किया है। मौके पर यमुना सीकरिया ने बताया कि यह सम्मान अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, दिल्ली के सौजन्य से इन दोनों रक्त वीरों को प्रदान करने के लिए भेजा गया था। कार्यक्रम के दौरान जरूरत मंदों को रक्त की व्यवस्था कराने वाले अनिरुद्ध लोहिया को भी सम्मानित किया गया। मंच अध्यक्ष श्री सीकरिया ने कहा कि रक्त दान सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। इससे लोगों की जीवन की रक्षा होती है। उन्होने समाज के लोगों से ज्यादा ले ज्यादा रक्तदान करने की भी अपील की।

खुशखबरी! जून में इस तारीख को किसानों के खाते में आएंगे 2 हजार रुपये, पीएम मोदी जारी करेंगे 17वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं।

नई दिल्ली। किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को काफी समय से 17वीं किस्त का इंतजार है। अब जल्द ही किसानों के खाते में किस्त के दो हजार रुपये आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। मोदी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे, जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे पैरा-विस्तार कार्यक्रमों के रूप में काम कर सकें और साथी किसानों को खेती में मदद कर सकें।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने



संवाददाताओं से बात करते हुए कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। चौहान ने कहा, 'पिछले दो कार्यकालों में कृषि हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद

मोदी जी ने सबसे पहले पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए।'

साल 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनकी विलीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक राशि प्राप्त होती है। चौहान ने कहा कि योजना की शुरूआत के बाद से केंद्र ने देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के विभिन्न मंत्री वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कृषि मंत्री ने कृषि सखी योजना पर भी प्रकाश डाला, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक सहयोगात्मक

प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की 90,000 महिलाओं को अर्ध-विस्तार कृषि श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षित करना है, ताकि कृषक समुदाय की सहायता की जा सके तथा अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके।

अब तक, लक्षित 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को 12 राज्यों- गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में पैरा-विस्तार कार्यक्रमों के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है।

सरकार कृषि क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना तैयार कर रही है, जिसमें किसानों के कल्याण और देश में कृषि परिदृश्य के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।

अगले हफ्ते सिर्फ 4 दिन खुलेगा शेयर बाजार

नई दिल्ली।

शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी देखने को मिली है। बाजार कल कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था। नियंत्रण के उल्हासजनक आंकड़ों के बीच शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों में लिवाली आने से लगातार तीसरे सत्र में भी तेजी जारी रही थी। इससे अस्सर में घरेलू बाजारों के मानक सूचकांक संसेक्स और निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए थे। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक संसेक्स 181.87 अंक यानी 0.24 प्रतिशत चढ़कर 76,992.77 अंक के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह 270.4 अंक यानी 0.35 प्रतिशत चढ़कर 77,081.30 अंक पर पहुंच गया था।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी 66.70 अंक यानी 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,465.60 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 91.5 अंक बढ़कर 23,490.40 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अगले सप्ताह शेयर बाजार में एक दिन छुट्टी रहने वाली है। बाजार में 4 दिन कारोबार होगा। शेयर बाजार सोमवार यानी 17 जून को बंद रहने वाला है। इस दिन बकरीद के चलते बाजार बंद रहेगा। बकरीद के दिन ट्रेडिंग हॉलिडेज पर इक्विटी सेक्टर, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और एसएलबी सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके अलावा पब्लिक हॉलिडेज पर, कैपिटल मार्केट और स्पूचर व ऑप्शंस सेगमेंट में भी कारोबार नहीं होगा।

न्यूज ब्रीफ.....

एक ही दिन में पलट गई एलन मस्क की दुनिया, नंबर वन रईस की कुर्सी हाथ से गई

नई दिल्ली। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में एक ही रात में भारी उलटफेर देखने को मिला है। एलन मस्क के हाथ से एक ही दिन में नंबर वन रईस की कुर्सी छिन गई है। मस्क गुरुवार को दुनिया के सबसे बड़े रईस बने थे लेकिन शुक्रवार को वह दूसरे नंबर पर खिसक गए। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन मस्क की नेटवर्थ में 3.19 अरब डॉलर की गिरावट आई। उनकी नेटवर्थ अब 203 अरब डॉलर रह गई है जबकि एमर्जेंट के जेफ बेजोस 206 अरब डॉलर के साथ उनसे आगे निकल गए हैं। बेजोस की नेटवर्थ में इस साल 29.3 अरब डॉलर की तेजी आई है जबकि मस्क की नेटवर्थ 25.7 अरब डॉलर गिरी है। लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी

पर काबिज रहे बर्नार्ड अर्नॉल्ट 198 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। फेसबुक की परेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जकरबर्ग 179 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 51 अरब डॉलर की तेजी आई है। लैरी पेज 157 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पांचवें और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर 155 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर हैं। स्टीव बाल्मर (153 अरब डॉलर) सातवें, लैरी एलिसन (150 अरब डॉलर) आठवें, सर्गेई ब्रिन (147 अरब डॉलर) नौवें और वॉरेन बफे (134 अरब डॉलर) दसवें नंबर पर हैं। एआई विप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग 116 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 11वें नंबर पर आ गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 71.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दुनिया के टॉप 12 अरबपतियों में 11 अमेरिका के हैं। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 113 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। शुक्रवार को उनकी नेटवर्थ में 68.5 करोड़ डॉलर की तेजी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की नेटवर्थ इस साल 16.2 अरब डॉलर बढ़ी है। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 14वें नंबर पर हैं। शुक्रवार को उनकी नेटवर्थ 69.6 अरब डॉलर बढ़ी और इस साल इसमें 22.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

पर काबिज रहे बर्नार्ड अर्नॉल्ट 198 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। फेसबुक की परेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जकरबर्ग 179 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 51 अरब डॉलर की तेजी आई है। लैरी पेज 157 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पांचवें और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर 155 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर हैं। स्टीव बाल्मर (153 अरब डॉलर) सातवें, लैरी एलिसन (150 अरब डॉलर) आठवें, सर्गेई ब्रिन (147 अरब डॉलर) नौवें और वॉरेन बफे (134 अरब डॉलर) दसवें नंबर पर हैं। एआई विप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग 116 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 11वें नंबर पर आ गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 71.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दुनिया के टॉप 12 अरबपतियों में 11 अमेरिका के हैं। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 113 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। शुक्रवार को उनकी नेटवर्थ में 68.5 करोड़ डॉलर की तेजी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की नेटवर्थ इस साल 16.2 अरब डॉलर बढ़ी है। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 14वें नंबर पर हैं। शुक्रवार को उनकी नेटवर्थ 69.6 अरब डॉलर बढ़ी और इस साल इसमें 22.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

पर काबिज रहे बर्नार्ड अर्नॉल्ट 198 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। फेसबुक की परेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जकरबर्ग 179 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 51 अरब डॉलर की तेजी आई है। लैरी पेज 157 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पांचवें और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर 155 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर हैं। स्टीव बाल्मर (153 अरब डॉलर) सातवें, लैरी एलिसन (150 अरब डॉलर) आठवें, सर्गेई ब्रिन (147 अरब डॉलर) नौवें और वॉरेन बफे (134 अरब डॉलर) दसवें नंबर पर हैं। एआई विप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग 116 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 11वें नंबर पर आ गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 71.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दुनिया के टॉप 12 अरबपतियों में 11 अमेरिका के हैं। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 113 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। शुक्रवार को उनकी नेटवर्थ में 68.5 करोड़ डॉलर की तेजी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की नेटवर्थ इस साल 16.2 अरब डॉलर बढ़ी है। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 14वें नंबर पर हैं। शुक्रवार को उनकी नेटवर्थ 69.6 अरब डॉलर बढ़ी और इस साल इसमें 22.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

एसबीआई बैंक ने लोन पर बढ़ा दिया ब्याज, अब चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई



नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों को महंगाई का झटका दिया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने एमसीएलआर में 10 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) या 0.1 फीसदी का इजाफा कर दिया है। इसके चलते बैंक के ग्राहकों को अब ज्यादा ईएमआई का बोझ उठाना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। लेकिन कई बैंकों ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। एसबीआई ने आरबीआई के मौद्रिक नीति की बैठक के कुछ दिन बाद ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एसबीआई के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़े सभी तरह के लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। एसबीआई की इस बढ़ोतरी के बाद एक साल का एमसीएलआर 8.65 फीसदी से बढ़कर 8.75 फीसदी हो गया है। ओवरनाइट एमसीएलआर 8 फीसदी से बढ़कर 8.10 फीसदी हो गया है। एक महीने और तीन महीने का एमसीएलआर दोनों 8.20 फीसदी से बढ़कर 8.30 फीसदी हो गया है। छह महीने का एमसीएलआर 8.55 प्रतिशत से बढ़कर 8.65 फीसदी हो चुका है। इसी के साथ दो साल का एमसीएलआर 8.75 फीसदी से बढ़कर 8.85 फीसदी हो गया है। वहीं तीन साल का एमसीएलआर अब 8.85 फीसदी से बढ़कर 8.95 फीसदी हो गया है। एमसीएलआर एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिसका इसके मुताबिक सभी बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन, ऑटो लोन समेत कई लोन देते हैं। बैंक इस ब्याज दर से कम पर लोन की इजाजत नहीं देते हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बेस रेट में भी बदलाव किया है। नया बेस रेट 10.40 प्रतिशत है, जो 15 जून 2024 से लागू हो गया है। वहीं, एसबीआई बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) में बदलाव कर 5.15% प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो 15 जून 2024 से प्रभावी हो गई है।

भारत-इटली संबंध

साल 1995 में पीपीपी के हिसाब से दोनों देशों की जीडीपी एक बराबर थी लेकिन आज मामला काफी बदल गया है।

30 साल पहले एक ही पटरी पर थे भारत और इटली, अब तुम कहां हम कहां!

साल 1995 में एक बराबर थी भारत और इटली की इकॉनमी पीपीपी के हिसाब से दोनों देशों की जीडीपी \$1.3 ट्रिलियन थी लेकिन आज भारत की इकॉनमी काफी आगे निकल चुकी है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इटली के अपुलिया में जी-7 समिट के बाद स्वदेश लौट आए हैं। भारत जी-7 का सदस्य नहीं है लेकिन उसने 'आउटरीच नेशन' के रूप में इसमें हिस्सा लिया था। इस दौरान मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी क्लिक की। इसकी सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी दोनों नेताओं ने दुबई में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सेल्फी क्लिक की थी। दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। एक समय था जब भारत और इटली की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बराबरी पर थी। लेकिन



आज भारत ने इटली को काफी पीछे छोड़ दिया है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया में पांचवें और पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। वहीं इटली नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया में

की जीडीपी का साइज भी इतना ही था। बच जाया। अभी अमेरिका पहली, चीन दूसरी, जर्मनी तीसरी और जापान चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगले तीन साल के दौरान भारतीय इकॉनमी के औसतन 6.7% की रफ्तार से दौड़ने का अनुमान है। दूसरी ओर इटली की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में 0.7% रहने का अनुमान है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में इटली के आगे भारत नहीं है। इटली की पीपीपी के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्थाओं में एकसमान वस्तुओं की कीमत के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है।

भारत और इटली जहां तक नॉमिनल जीडीपी की बात है तो भारत 3.94 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। वहीं इटली की इकॉनमी का साइज 2.33 ट्रिलियन डॉलर है और यह दुनिया की नौवीं बड़ी इकॉनमी है। भारत आज दुनिया में सबसे अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही इकॉनमी है। आईएमएफ का कहना है कि भारत अगले तीन साल तक दुनिया की सबसे तेजी इकॉनमी बाने रहेगा। साल 1995 में पीपीपी के हिसाब से भारत की जीडीपी का आकार 1.3 ट्रिलियन डॉलर था। उस समय इटली

टाटा ग्रुप की इस कंपनी को लगा बड़ा झटका, अमेरिकी कोर्ट ने लगाया करोड़ों रुपये का जुमाना

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस को बड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी अदालत ने टाटा समूह की आईटी कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपये का जुमाना लगाया है। कंपनी ने खुद इसकी जानकारी दी है। दरअसल एक अमेरिकी अदालत ने अमेरिकी आईटी सेवा फर्म डीएक्ससी (पूर्व में सीएससी) के ट्रेड सीक्रेट के दुरुपयोग के लिए टीसीएस पर 194 मिलियन डॉलर का जुमाना लगाया है। अदालत ने कहा कि टीसीएस को सीएससी को 56 मिलियन डॉलर का कंपनसेटरी डैमेज और 112 मिलियन डॉलर का एक्जैम्प्लरी डैमेज देना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि टीसीएस 13 जून तक 25 मिलियन डॉलर का पूर्व-निर्णय ब्याज देने के लिए उत्तरदायी है। इसने टीसीएस के खिलाफ कुछ निषेधाज्ञा और अन्य राहतें भी पारित की हैं।

रद्द किया था सौदा साल 2018 में, टीसीएस ने अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने और 10 मिलियन से अधिक पॉलिसियों की सेवा को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म में सरल बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए टीसीएस ने अमेरिकी कर्बों से शुद्धता की जांच के लिए चांदी के गहने लाए गए। लैब में लाए गए 12306 चांदी की पायल, छल्ला, कड़ा, चैन, घुंघरू, बिछिया, नेकलेस को जांचा गया। लैब की जो रिपोर्ट आई, वह आपकी हिला देगी। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक वहां लाए गए कुछ गहनों में तो एक भी फीसदी चांदी थी ही नहीं थी। वहां जांचे गए 90 फीसदी गहने मानक से कमतर पाए गए। मतलब कि सबमें अशुद्धता और मिलावट। अखबार के मुताबिक, आजकल बाजारों में बिकने वाले चांदी के 66 फीसदी जेवरों में 60 से 70 फीसदी तक जस्ता तथा एल्युमिनियम की मिलावट की जा रही है। कुछ ज्वेलर तो गिलट के गहने चांदी की बताकर बेच रहे हैं। लैब में आए करीब 70 फीसदी गहनों में गिलट और एल्युमिनियम की चमक पाई की लैब में एक साल में विभिन्न शहरों व

की जीडीपी का साइज भी इतना ही था। बच जाया। अभी अमेरिका पहली, चीन दूसरी, जर्मनी तीसरी और जापान चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगले तीन साल के दौरान भारतीय इकॉनमी के औसतन 6.7% की रफ्तार से दौड़ने का अनुमान है। दूसरी ओर इटली की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में 0.7% रहने का अनुमान है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में इटली के आगे भारत नहीं है। इटली की पीपीपी के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्थाओं में एकसमान वस्तुओं की कीमत के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है।

नई दिल्ली। महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और झटका लगने वाला है। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। दरअसल कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने बिक्री कर में 29.84 फीसदी और 18.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से बिक्री कर में किए गए इस इजाफे का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा होना तय है। पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का असर रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाले सामानों पर भी देखने को मिलेगा। इनकी

आम आदमी को लगेगा झटका! कर्नाटक में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और झटका लगने वाला है। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। दरअसल कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने बिक्री कर में 29.84 फीसदी और 18.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से बिक्री कर में किए गए इस इजाफे का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा होना तय है। पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का असर रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाले सामानों पर भी देखने को मिलेगा। इनकी

की जीडीपी का साइज भी इतना ही था। बच जाया। अभी अमेरिका पहली, चीन दूसरी, जर्मनी तीसरी और जापान चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगले तीन साल के दौरान भारतीय इकॉनमी के औसतन 6.7% की रफ्तार से दौड़ने का अनुमान है। दूसरी ओर इटली की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में 0.7% रहने का अनुमान है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में इटली के आगे भारत नहीं है। इटली की पीपीपी के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्थाओं में एकसमान वस्तुओं की कीमत के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है।

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों को महंगाई का झटका दिया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने एमसीएलआर में 10 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) या 0.1 फीसदी का इजाफा कर दिया है। इसके चलते बैंक के ग्राहकों को अब ज्यादा ईएमआई का बोझ उठाना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। लेकिन कई बैंकों ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। एसबीआई ने आरबीआई के मौद्रिक नीति की बैठक के कुछ दिन बाद ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एसबीआई के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़े सभी तरह के लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। एसबीआई की इस बढ़ोतरी के बाद एक साल का एमसीएलआर 8.65 फीसदी से बढ़कर 8.75 फीसदी हो गया है। ओवरनाइट एमसीएलआर 8 फीसदी से बढ़कर 8.10 फीसदी हो गया है। एक महीने और तीन महीने का एमसीएलआर दोनों 8.20 फीसदी से बढ़कर 8.30 फीसदी हो गया है। छह महीने का एमसीएलआर 8.55 प्रतिशत से बढ़कर 8.65 फीसदी हो चुका है। इसी के साथ दो साल का एमसीएलआर 8.75 फीसदी से बढ़कर 8.85 फीसदी हो गया है। वहीं तीन साल का एमसीएलआर अब 8.85 फीसदी से बढ़कर 8.95 फीसदी हो गया है। एमसीएलआर एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिसका इसके मुताबिक सभी बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन, ऑटो लोन समेत कई लोन देते हैं। बैंक इस ब्याज दर से कम पर लोन की इजाजत नहीं देते हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बेस रेट में भी बदलाव किया है। नया बेस रेट 10.40 प्रतिशत है, जो 15 जून 2024 से लागू हो गया है। वहीं, एसबीआई बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) में बदलाव कर 5.15% प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो 15 जून 2024 से प्रभावी हो गई है।

की जीडीपी का साइज भी इतना ही था। बच जाया। अभी अमेरिका पहली, चीन दूसरी, जर्मनी तीसरी और जापान चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगले तीन साल के दौरान भारतीय इकॉनमी के औसतन 6.7% की रफ्तार से दौड़ने का अनुमान है। दूसरी ओर इटली की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में 0.7% रहने का अनुमान है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में इटली के आगे भारत नहीं है। इटली की पीपीपी के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्थाओं में एकसमान वस्तुओं की कीमत के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है।

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों को महंगाई का झटका दिया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने एमसीएलआर में 10 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) या 0.1 फीसदी का इजाफा कर दिया है। इसके चलते बैंक के ग्राहकों को अब ज्यादा ईएमआई का बोझ उठाना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। लेकिन कई बैंकों ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। एसबीआई ने आरबीआई के मौद्रिक नीति की बैठक के कुछ दिन बाद ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एसबीआई के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़े सभी तरह के लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। एसबीआई की इस बढ़ोतरी के बाद एक साल का एमसीएलआर 8.65 फीसदी से बढ़कर 8.75 फीसदी हो गया है। ओवरनाइट एमसीएलआर 8 फीसदी से बढ़कर 8.10 फीसदी हो गया है। एक महीने और तीन महीने का एमसीएलआर दोनों 8.20 फीसदी से बढ़कर 8.30 फीसदी हो गया है। छह महीने का एमसीएलआर 8.55 प्रतिशत से बढ़कर 8.65 फीसदी हो चुका है। इसी के साथ दो साल का एमसीएलआर 8.75 फीसदी से बढ़कर 8.85 फीसदी हो गया है। वहीं तीन साल का एमसीएलआर अब 8.85 फीसदी से बढ़कर 8.95 फीसदी हो गया है। एमसीएलआर एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिसका इसके मुताबिक सभी बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन, ऑटो लोन समेत कई लोन देते हैं। बैंक इस ब्याज दर से कम पर लोन की इजाजत नहीं देते हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बेस रेट में भी बदलाव किया है। नया बेस रेट 10.40 प्रतिशत है, जो 15 जून 2024 से लागू हो गया है। वहीं, एसबीआई बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) में बदलाव कर 5.15% प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो 15 जून 2024 से प्रभावी हो गई है।

अमीर लोग तो सोने के हीरे-जवाहरात जड़े हुए गहने खरीदते और पहनते हैं। लेकिन गरीब लोगों का शोक अभी भी चांदी के गहनों से ही पूरा हो रहा है।

चांदी की पायल-बिछिया, कड़े-छल्ले सब खोटे, 70% गहनों में गिलट और एल्युमिनियम की चमक

नई दिल्ली। बड़े या अमीर लोग तो सोने के गहने खरीदते-पहनते हैं। लेकिन गरीब लोग पाई-पाई जोड़कर पायल, बिछिया जैसे चांदी के छोटे गहने खरीदते हैं। जैसे इनकी आमदनी कम है, वैसे ही इनकी पहुंच भी कम है। इसलिए वे अपने गांव-कस्बे या पास के शहर के सुनार से ही ये गहने खरीद लेते हैं। ऐसे ही चांदी के गहने खरीदने वाले एक जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी बचत के करोड़ों रुपए हर दिन टगे जा रहे हैं। दरअसल, ऐसे चांदी के गहने 70 फीसदी तक नकली हैं। कुछ ज्वेलर्स गिलट को चांदी कह कर बेच रहे हैं। इन गहनों पर चांदी नहीं बल्कि एल्युमिनियम की चमक है। एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के सराफा ट्रेडर्स कमेटी की लैब में एक साल में विभिन्न शहरों व

की जीडीपी का साइज भी इतना ही था। बच जाया। अभी अमेरिका पहली, चीन दूसरी, जर्मनी तीसरी और जापान चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगले तीन साल के दौरान भारतीय इकॉनमी के औसतन 6.7% की रफ्तार से दौड़ने का अनुमान है। दूसरी ओर इटली की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में 0.7% रहने का अनुमान है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में इटली के आगे भारत नहीं है। इटली की पीपीपी के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्थाओं में एकसमान वस्तुओं की कीमत के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है।



ऐसे गहने बेचने जाएं तो आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे आगरा, मथुरा, नाथद्वारा तथा राजकोट से मंगाए गए चांदी के मंगलसूत्र, चूड़ियां, लौंग, पाजेब, चैन, एंकेलेट को जांचा गया। ये भी नकली। इन गहनों को यदि वक्त-बेवक्त बेचने जाएं तो जितने पैसे लगाए हैं, उसका आधा पैसा भी नहीं मिलता। अक्सर लोग भरोसे में किसी लोकल ज्वेलर्स से ये गहने खरीद लेते हैं। लेकिन उन्हें ठगी का अहसास तब होता है जब उसे वे बेचे जाते हैं।

हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें यूं तो गहनों की शुद्धता जांचने के लिए हॉलमार्क पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन, भारतीय मानक ब्यूरो केवल सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्क के लिए लाइसेंस लेने वाले ज्वेलर्स के गहनों में शुद्धता जांचता है। जिनके पास लाइसेंस नहीं, उनके गहने नहीं जांचता है। ब्यूरो का कहना है कि हॉलमार्क चांदी के गहने ही खरीदें, ताकि उन्हें पूरी शुद्धता मिले। जयपुर के लैब में जो चांदी के खोटे गहने पकड़े गए, उनमें से अधिकतर आगरा, मथुरा, नाथद्वारा तथा राजकोट से आए गहने थे। जयपुर के स्वर्णकारों का कहना है कि इन्हीं शहरों से चांदी के खोटे जेवर आ रहे हैं। इसी की वजह से सभी सुनार बदनम हो रहे हैं।

रोज करोड़ों की ठगी अनुमान के मुताबिक, सिर्फ राजस्थान में ही हर दिन औसतन एक हजार किलो चांदी के गहने बिकते हैं। इनकी अनुमानित कीमत गहनों के मैकिंग चार्ज मिलाकर 10 करोड़ बैठती है। इनमें से 70% गहनों में शुद्धता 10 से 80% ही रहती है। यानी हर दिन महिलाओं से बचत का 3 से 4 करोड़ रुपए मिलावटी चांदी के गहने बेचकर टगे जा रहे हैं। सुनारों का कहना है कि अच्छे गहने स्टर्लिंग चांदी के रूप में बेचे जाते हैं। ऐसे गहने 92.5% चांदी होते हैं। इम्प्लिए इस पर .925 या 925 की मुहर लगी होती है। शुद्ध चांदी नरम होती है, इसलिए गहने को मजबूती देने के लिए तांबा, जस्ता या निकल मिलाया जाता है। लेकिन वह साढ़े सात फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।



संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

भारत की दिव्या देशमुख बनी विश्व जूनियर चैम्पियन



गांधीनगर। भारत की नंबर चार महिला शतरंज खिलाड़ी 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने अपने खेल जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व जूनियर शतरंज चैम्पियनशिप (बालिका) का खिताब अपने नाम कर लिया है। अंतिम राउंड में दिव्या ने बुल्गेरिया की क्रान्स्टेवा बेलोस्लावा को पराजित करते हुए देश के विश्व जूनियर खिताब के 15 साल के सूखे को खत्म कर दिया है। दिव्या से पहले भारत की कोनेरु हम्पी ने एथेंस ग्रीस 2001 में, हरिका द्रोणावल्ली ने 2008 भारत में और सौम्या स्वामीनाथन ने 2009 में अर्जेंटीना में यह खिताब हासिल किया था।

ओलिंपिक तैयारियों के लिए राफेल नडाल विंबलडन से हटे

मैड्रिड। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल पेरिस ओलिंपिक 2024 की तैयारी के कारण वह विंबलडन टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। राफेल नडाल ने गुरुवार को आगामी विंबलडन 2024 से हटने के अपने फैसले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि यह उनका आखिरी ओलिंपिक होगा। उन्होंने कहा कि वह आल इंग्लैंड क्लब के लिए घास के कोर्ट पर खेलने और फिर क्ले कोर्ट पर वापस आने की बजाय सिर्फ क्ले कोर्ट पर ही खेलना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, 'पेरिस ओलिंपिक मेरा आखिरी ओलिंपिक होगा।'

कनाडा के खिलाफ टीम इंडिया का मुकाबला हुआ रद्द

सुपर 8 में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और कनाडा का मैच भी बारिश और मैदान गीला होने की वजह से नहीं हो पाया। फ्लोरिडा के लॉन्डरहिल में लगातार तीसरा मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया है। इसके साथ ही भारत के गुपू राउंड मुकाबले भी खत्म हो गए हैं।

फ्लोरिडा

कनाडा के खिलाड़ियों के पास भारत के खिलाफ खेलकर अच्छा अनुभव हासिल करने का मौका था। लेकिन बारिश की वजह से टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का मुकाबला नहीं हो पाया। अमेरिका के खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर नाम कमा लिया था। अब कनाडा के पास भी यह मौका था लेकिन बारिश ने उन्हें धोखा दे दिया। सुपर 8 की रस से पहले ही बाहर हो चुकी कनाडा का यह टूर्नामेंट में आखिरी मुकाबला था। दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट से संतोष करना पड़ा।

मैदान गीला होने की वजह से मैच रद्द

अमेरिका और आयरलैंड का मैच भी मैदान गीला होने की वजह से ही नहीं हो पाया था। फ्लोरिडा में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से मैदान पर कई जगह दलदल जैसी स्थिति हो गई है। इसी वजह से मैच होने असंभव हो गया है। ग्राउंड स्टाफ ने उसे काफी सूखाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। श्रीलंका और नेपाल के बीच इस मैदान पर होने वाला मुकाबला भी बारिश के ही श्रेष्ठ चढ़ गया था।



दोनों टीमों के खिलाड़ी ने साथ बिताया समय

कनाडा की टीम को भले ही भारत के खिलाफ मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनके खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ मैदान पर काफी समय बिताया। फ्लोरिडा में बारिश नहीं हो रही थी। इसकी वजह से दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरे। भारतीय टीम ने फुटबॉल खेलकर अभ्यास भी किया। इसके साथ ही कनाडा के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के साथ लगातार बात करते भी नजर आए।

सुपर 8 पर पड़ेगा इसका असर?

हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या इस मैच के नतीजे का सुपर 8 के शेड्यूल पर असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। शुरुआत 3 मैच जीतकर भारत ने सुपर-8 में जगह पक्की कर ली थी। यह पहला से ही तय था कि भारत सुपर 8 में पहुंचता है तो ए-1 के रूप में जाएगा। इस मैच के रद्द होने से भारत के 7 पॉइंट हो गए हैं। अमेरिका 5 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर रहा। अगर अमेरिका पहले नंबर पर भी होता तो वह ए-2 ही माना जाता और उसे उसी हिसाब से सुपर-8 में खेला होता।

टी-20 वर्ल्डकप के 28वें मुकाबले में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराया

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज लक्ष्य हासिल किया

ओमान को 47 रन पर समेट 3.1 ओवर में जीत की दर्ज

कंसिटाउन

टी-20 वर्ल्डकप के 28वें मुकाबले में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। एंटीगुआ के सर वियन रिचर्ड्स स्टेडियम में गुरुवार देर रात हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम महज 47 रन पर ही ऑलआउट हो गई। जबवा में इंग्लैंड के बैट्स ने 3.1 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। यह वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट चेज था। मार्क वुड ने शानदार कैच लिया। वहीं, फिल सॉल्ट पारी की पहली दे बॉल पर दो सिक्स लगाने के बाद बोल्लड हो गए।

मार्क वुड ने फॉलो थ्रू में लिया शानदार कैच

ओमान की पारी में मार्क वुड ने अपने स्पेल की शुरुआत विकेट के साथ की। स्ट्राइक पर जीशान मकसूद थे। ओवर की पहली ही बॉल पर वुड ने लेथ बॉल फेंकी। मकसूद ने फ्लिक करने में जल्दी कर दी और बॉल उनके बल्ले से लगेकर सामने की ओर गई। इस दौरान बॉल फेंकने के बाद फॉलो थ्रू कर रहे वुड के सामने अचानक से बॉल आई, उन्होंने अपने शानदार रिफ्लेक्स दिखाए और आगे की ओर डाइव लगाकर कैच लपक लिया। जीशान 1 रन बनाकर आउट हो गए।



राशिद ने कलीमुल्लाह को गुगली में फंसाया

इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद ने शानदार स्पेल करते हुए 4 विकेट लिए। पहले ही 3 विकेट लेने के बाद वे 13वें ओवर में अपना चौथा ओवर करने आए। कलीमुल्लाह तब क्रीज पर थे। ओवर की पांचवी बॉल पर उन्होंने गुगली फेंकी। कलीमुल्लाह को कुछ समझ नहीं आया, वे डिफेंड करने के लिए आगे आए और बॉल उनके पैड्स और बल्ले के बीच से होकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी।

स्कोर बोर्ड				
ओमान	रन	बॉल	4s	6s
प्रतीक के फिलिप बो आंचर	5	3	1	0
कश्यप के लियाम बो वुड	9	16	0	1
आकिब के विल बो आंचर	8	10	1	0
जीशान कौंट एंड बोल्लड वुड	1	5	0	0
खालिद स्टैप बटलर बो राशिद	1	3	0	0
अयान खान बोल्लड वुड	1	5	0	0
शोएब के बटलर बो आंचर	11	23	1	0
मेहरान के मोईन बो राशिद	0	2	0	0
फैयाज बट बोल्लड राशिद	2	7	0	0
कलीमुल्लाह बोल्लड राशिद	5	5	1	0
बिलाल खान नाबाद	0	1	0	0
कुल: 47/10 (13.2)				
गेंदबाजी: रिस टॉपले (3-0-12-0), जोफ्रा आंचर (3.2-1-12-3), मार्क वुड (3-0-12-3), आदिल राशिद (4-0-11-4)				
इंग्लैंड	रन	बॉल	4s	6s
फिलिप साउथ बोल्लड बिलाल	12	3	0	2
जोस बटलर नाबाद	24	8	4	1
विल के कश्यप बो कलीमुल्लाह	5	7	1	0
जोनी बेयरटो नाबाद	8	2	2	0
कुल: 50/2 (3.1)				
गेंदबाजी: बिलाल खान (2-0-36-1), कलीमुल्लाह (1-0-10-1), फैयाज बट (0.1-0-4-0)				

टी20 विश्व कप में सबसे छोटा स्कोर

टीम	स्कोर	बनाया	वर्ष	कप्तान
नीदरलैंड	39/10	श्रीलंका	वटगंवा	2014
यूगांडा	39/10	वेस्टइंडीज	गवाना	2024
नीदरलैंड	44/10	श्रीलंका	राजावा	2021
ओमान	47/10	इंग्लैंड	एंटीगुआ	2024
वेस्टइंडीज	55/10	इंग्लैंड	दुबई	2021

टी20 विश्व कप में सबसे तेज लक्ष्य हासिल

टीम	बनाया	ओवर	वर्ष	कप्तान
इंग्लैंड	ओमान	3.1	एंटीगुआ	2024
श्रीलंका	नीदरलैंड	5	वटगंवा	2014
न्यूजीलैंड	इंग्लैंड	5.2	वटगंवा	2014
अंस्ट्रेलिया	नामीबिया	5.4	नॉर्थ साउथ	2024
वेस्टइंडीज	इंग्लैंड	5.5	ओबिडित	2010

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर

इंग्लैंड के खिलाफ ओमान ने वर्ल्ड कप में सबसे छोटा टी-20 स्कोर बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था। वेस्टइंडीज ने दुबई के मैदान पर 55 रन का स्कोर बनाया था।

अमेरिका-आयरलैंड मैच बारिश के कारण रद्द

यूएसए सुपर-8 के लिए क्वालिफाई 2009 की चैम्पियन पाकिस्तान बाहर



लॉन्डरहिल

टी-20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और आयरलैंड मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले। ऐसे में यूएस-ए से होस्ट अमेरिकी टीम सुपर-8 के लिए क्वालिफाई कर गई है, जबकि 2009 की चैम्पियन पाकिस्तान लीग राउंड से ही बाहर हो गई है। फ्लोरिडा के लॉन्डरहिल में यह मैच शुरूवार रात 8:00 बजे से खेला जाना था, लेकिन वहां शुरूवार को बारिश होने लगी। कुछ देर के लिए बारिश रुकने के बाद अंपायर्स ने 3 बार मैदान का निरीक्षण किया। आखिरकार आउट फील्ड गीला होने के कारण मैच रद्द करने का फैसला लिया गया।

पिछली भिड़ंत- आयरलैंड ने 9 रन से जीता था मैच

आयरलैंड और अमेरिका के बीच टी-20 इंटरनेशनल्स में पिछली भिड़ंत 23 दिसंबर 2021 को फ्लोरिडा में ही हुई थी। मैच को आयरलैंड ने 9 रन से जीता था। पहले खेलते हुए आयरलैंड 18.5 ओवर में 150 पर ऑलआउट हो गई थी। उस मैच में भी सीरम नेत्रवल्कर ने 3 विकेट लिए थे। हालांकि, अमेरिका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खो कर 141 रन ही बना पाई थी।

यूएसए सुपर-8 में पहुंचने वाली छठी टीम, अब 2 जगह बाकी

होस्ट अमेरिका टूर्नामेंट के सुपर-8 में प्रवेश करने वाली छठी टीम बन गई है। वह टॉप-8 में पहुंचने वाली गुपू-ए की दूसरी टीम है। अब सुपर-8 में कुल 2 जगह खाली हैं। यूएसए को इस मुकाबले से एक अंक मिला और टीम के कुल 5 अंक हो गए।

अमेरिका के एरोन जोन्स और सौरभनेत्रवल्कर फॉर्म में

अमेरिका अपने पहले टी-20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम के बल्लेबाज एरोन जोन्स अपनी शानदार बल्लेबाजी से चर्चा में हैं। उन्होंने कनाडा के खिलाफ 94 रन की पारी खेली थी। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भी नाबाद 36 रन बनाए थे। उनके अलावा गेंदबाजी में भारतीय मूल के सीरम नेत्रवल्कर ने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ 2-2 विकेट वटकाए थे।

यूनियन फुटबॉल क्लब ने एक महीने तक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का सफल आयोजन किया

स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का समापन समारोह में वित्त सचिव ठकराल के उदगार

जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त सचिव नरेश कुमार ठकराल ने कहा कि सीमित साधनों में यूनियन फुटबॉल क्लब ने एक महीने तक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का सफल आयोजन किया। मैं विभिन्न टूर्नामेंट आयोजनों में यहां आता रहा हूँ, जीवन में खुश रखने वाले चार तत्व हार्मोन्स खेल मैदान में खिलाड़ियों को स्वतः मिल जाते हैं। आगामी गुरुवार 20 जून को प्रातः 6 बजे यूनियन ग्राउंड में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री ठकराल ने हाथ खड़े कर सहमति ली। नरेश कुमार ठकराल ने क्लब सचिव महिपाल स्वामी, क्लब



कोऑर्डिनेटर एवं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप अभिनव स्वामी, कबड्डी

कोच राजनारायण शर्मा, योग फिटनेस शिक्षक भव्या राजावत,

ग्राउंड इंचार्ज विजयदीप, फुटबॉल कोच हर्षवर्धन,

यशवर्धन आदि के योगदान को सरहरना की। उपस्थित अभिभावकों और खिलाड़ियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में महिपाल स्वामी ने कहा कि, प्रशासन और शासन का निश्चल सहयोग मिलता रहा तो आगामी आठ वर्षों में यूनियन फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल टीम क्वालीफाई करा देगा। स्वामी ने क्लब की मुख्य संरक्षक दिव्या कुमारी, उप मुख्यमंत्री के पूर्वजों की खेल प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। वित्त सचिव ठकराल ने सभी खेलों के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और प्रशिक्षकों को प्रशंसा पत्र दिए।

डेड रबर मैच में सम्मान बचाने उतरेगा न्यूजीलैंड

तारोबा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शनिवार सुबह गुपू डी के एक डेड रबर मुकाबले में यूगांडा का सामना न्यूजीलैंड से होगा। डेड रबर इसलिए कि ये दोनों टीमों प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला सुबह छह बजे से ट्विन्डेड के टरुबा के ब्रानन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण आप हमारे सहयोगी चैनल स्टार स्पोर्ट्स और होटस्टार पर देख सकते हैं और लाइव अपडेट व गेंद-दर-गेंद कॉमेंट्री को हमारे वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं।

सुमित नागल का शानदार प्रदर्शन जारी, पेरुगिया चैलेंजर के सेमीफाइनल में पहुंचे



नई दिल्ली

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शुक्रवार को पेरुगिया चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। छठे वरीय नागल ने क्वार्टर फाइनल में गैर वरीयता प्राप्त पोलैंड के माक्स कसिनकोवस्की पर सीधे सेट में 6-4, 7-5 से जीत हासिल की। शनिवार को सेमीफाइनल में नागल का सामना स्पेन के गैर वरीय नॉबे जापाटा मिरालेस और दूसरे वरीय सर्बिया के लास्लो जेरे के बीच होने वाले क्वार्टरफाइनल के विजेता से होगा। यह नागल की जर्मनी में हीलब्रोन चैलेंजर के शुरू होने के बाद लगातार आठवीं जीत है। नागल ने इससे पहले शुरूआती दौर में बोस्निया हर्जोगोविना के गैर वरीय नर्मन फाटिक पर और फिर प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के गैर वरीय एलेसांद्रो जिज्यानेसी पर जीत दर्ज की थी। पिछले हफ्ते नागल ने हीलब्रोन चैलेंजर खिताब जीता था जो उनकी इस सत्र में दूसरी चैलेंजर ट्राफी थी। उन्होंने फरवरी में चेन्नई चैलेंजर में फतह हासिल की थी।

भारत का कोई भी खिलाड़ी इस सुपर 500 टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ने में सफल नहीं रहा

एचएस प्रणय को मिली हार, टूर्नामेंट में समाप्त हुई भारतीय चुनौती



लॉन्डरहिल

भारत के शीर्ष रैंकिंग के सिंगल्स खिलाड़ी एचएस प्रणय की हार के साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। प्रणय को अपने से ऊंची रैंकिंग के जापान के कोडाई नाराओका से 19-21, 13-21 से हार मिली। भारत का कोई भी खिलाड़ी इस सुपर 500 टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ने में सफल नहीं रहा। विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज प्रणय की हार से पहले पुरुष सिंगल्स वर्ग में समीर वर्मा और महिला सिंगल्स में आर्कषि कश्यप के अलावा सिक्की रेड्डी एवं बी सुमित रेड्डी की मिक्स्ड

जोड़ी को अंतिम आठ में हार का सामना करना पड़ा।

लय बरकरार नहीं रख सके प्रणय

प्रणय ने शुरुआती गेम में 10-16 से पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए स्कोर को 18-18 किया, लेकिन इसके बाद लय बरकरार नहीं रख सके। नाराओका ने दूसरे गेम में 5-5 की बराबरी के बाद अपना दबदबा बनाया शुरू किया और फिर भारतीय खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। विश्व रैंकिंग के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी लोह किन यू को हराकर उलटफेर करने वाले समीर चीनी ताइपे के लिन चुन यी के खिलाफ

दमखम नहीं दिखा सके। रैंकिंग में 17वें स्थान पर काबिज खिलाड़ी ने उन्हें महज 38 मिनेट में 21-12, 21-13 से हराया।

सुमित-सिक्की की जोड़ी को मिली हार

मिक्स्ड डबल्स में सुमित और सिक्की की आठवीं वरीयता प्राप्त पति-पत्नी जोड़ी को भी जि्यान जेन बैंग और वेई या शिन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से शिकस्त मिली। बैंग और शिन ने 21-12, 21-14 से आसान जीत दर्ज की। आठवीं वरीयता प्राप्त आर्कषि 42 मिनेट तक चले महिला सिंगल्स मुकाबले में चीनी ताइपे की यू पो पाई से 21-17, 21-12 से हार गई।

न्यूजीलैंड ने दो हार के बाद बड़ी जीत के साथ खोला खाता

टरुबा (त्रिनिदाद)। न्यूजीलैंड ने गुपू सी में यूगांडा को 9 विकेट से रौंदकर टी20 विश्व कप 2024 में अपनी पहली जीत दर्ज की। कलान केन विलियमसन ने यूगांडा के खिलाफ अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कीवी गेंदबाजों ने यूगांडा को शुरूआती झटके दिए, जिससे यह टीम उबर नहीं पाई। यूगांडा के टॉप 5 बल्लेबाजों में तीन विना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जबकि अन्य दो बल्लेबाज कुल 13 रन ही जोड़ पाए। मैच में साउदी ने अपने स्पेल में मात्र 7 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मैच में साउदी के 3 विकेट के अलावा ट्रेट बोल्लड, मिचेल सेंटनर और रचिन रविंद्र ने 2-2 विकेट झटके। लॉकी फर्ग्यूसन को 1 विकेट मिला। यूगांडा की टीम 18.4 ओवर में केवल 40 रन ही बना सकी। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन केनेथ वैसवा (11 रन) ने बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए, डेवोन कानवे के नाबाद 22 रन ने उन्हें ब्रानन लारा स्टेडियम में 9 विकेट से जीत दिलाई। यूगांडा से मिले 41 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 5.2 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

जिम के कपड़ों से आने वाले बैक्टीरिया से कैसे बचें



हम आपको बता दें कि आपके पसीने से बदन नहीं आती, लेकिन यह बैक्टीरिया त्वचा के संपर्क में आते हैं तो बदन आने लगती है। हालांकि नए कपड़े पसीने को त्वचा से दूर करने में अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन इनमें बैक्टीरिया के पनपने की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है सफाई और सही रखरखाव।

तकनीकी कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलिएस्टर बैक्टीरिया को पसंद करते हैं। फाइबर की अद्वितीय बुनाई बैक्टीरिया को छिपने का स्थान देती है। यहां तक कि नियमित रूप से धोने के बाद भी बैक्टीरिया दूर नहीं होता। और चीजें निश्चित रूप से और भी खराब हो जाती हैं, अगर आप एक्सरसाइज के पसीने से तर कपड़ों को जिम बैग में रख देते हैं। चाहे फिर वह केवल कुछ घंटों के लिए ही क्यों न हो। अधिकांश लोगों को खरखराव के स्तर का पता नहीं होता, जबकि इस नए मेटिरियल बदन फ्री रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जिम जाने वालों को अपने पसीने से तर एक्सरसाइज के कपड़े क्लीनिंग के तीन स्टेप से साफ करें।

पहले खंगालें और फिर हवा में डालें

तत्काल ध्यान देना किसी भी समस्या की कुंजी होती है। वर्कआउट के कपड़ों को पानी से निकालकर तुरंत बाहर हवा में डालें। बाहर की ताजी और खुली हवा कपड़ों को न केवल सुखाएगी, बल्कि उनमें से बदन भी हटा देगी। हालांकि तुरंत ऐसा करना अजीब लग सकता है, लेकिन यह पसीने और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए एक्सरसाइज के बाद कपड़ों को बैग में रखना ठीक है, लेकिन घर जाने के तुरंत बाद इसे धोना सही रहता है। अगर घर जाते ही ऐसा करना संभव नहीं है तो कम से कम कपड़ों को शुष्क हवा में रख दें। कपड़े धोने के कमरे में फर्श पर नम कपड़ों का ढेर एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।



कपड़ों को बैग में रखना ठीक है, लेकिन घर जाने के तुरंत बाद इसे धोना सही रहता है। अगर घर जाते ही ऐसा करना संभव नहीं है तो कम से कम कपड़ों को शुष्क हवा में रख दें। कपड़े धोने के कमरे में फर्श पर नम कपड़ों का ढेर एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

इन चीजों से पॉवर वॉश करें

धोने के पानी में 1 कप सफेद सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें। यह कपड़ों से बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करता है। अगर फिर भी बदन आ रही है तो कपड़ों को 1 कप सफेद सिरका, 2 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 चम्मच बेकिंग सोडा वाले पानी में एक घंटे तक भिगोकर रख दें। फिर सफेद सिरके और बेकिंग सोडा के साथ धो लें।

अपने प्रयासों पर पानी मत डालें

जिम के कपड़ों के साथ फेब्रिक सॉफ्टनर और ड्रयर शीट के प्रयोग से बचें, क्योंकि यह कपड़ों पर कोटिंग छोड़ सकता है। और कभी-कभी अपने जिम बैग को भी धोना चाहिए क्योंकि इस बैग में जिम के लिए पानी की बोतल, कपड़े, ग्लव्स, जूते, टॉवेल, आदि कई सामान होते हैं। आप इस बैग में पसीने वाले कपड़े भी रखते हैं। पसीने के कारण इनमें भी बैक्टीरिया पनपते हैं। इनके कारण ही त्वचा पर संक्रमण फैलने की अधिक संभावना होती है। इसके लिए सबसे पहले टैग की जांच करें, अगर आपका बैग मशीन में धो सकते हैं तो अंदर से बाहर मोड़कर, इसमें मौजूद किसी भी मेटल हिस्से को हटा दें। फिर इसे मशीन को डेलिकेट मोड पर करके धो लें और सुखाने के लिए हवा में बाहर डालें। लेकिन अगर आपका बैग चमड़े का है तो इसमें अखबार रखकर बदन को बेअसर कर सकते हैं।

इन तरीकों से

धूम्रपान को कहें अलविदा

सिगरेट की लत के बारे में कहते हैं कि यह लगती तो आसानी है, लेकिन छूटती आसानी से नहीं है। लेकिन स्मॉकिंग से होने वाले नुकसानों को देखते हुए इसे छोड़ देना ही बेहतर है, और इस लत से छुटकारा भी पाया जा सकता है। बस, जरूरत है तो मजबूत इच्छाशक्ति की। धूम्रपान करने वालों को अक्सर लगता है कि अगर वे धूम्रपान छोड़ देंगे तो उनके जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जो लोग धूम्रपान से किनारा कर लेते हैं, वे धूम्रपान करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा संतुष्ट, स्वस्थ और खुश रहते हैं। यदि आप कुछ टिप्स आजमाएंगे तो यकीनन आप धूम्रपान की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। यहां हम बता रहे हैं आपको कुछ नुस्खे, जिससे आप अपनी आदत छोड़ सकते हैं।

आत्मसंयम

दृढ़ निश्चय के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज जो आपको चाहिए, वो है आत्मसंयम। यदि आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख



पाएंगे तो सारा किया-धरा धुएं में उड़ जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। हो सकता है शुरुआत में दिक्कत आए, लेकिन खुद पर यकीन रखिए कि आप कर सकते हैं। आप अपने परिवार की एक ग्रुप फोटो अपने पास जखर रखें। जब भी आप सिगरेट पीए, तो धुएं के आर-पार उस फोटो को देखें। धुएं के पार फोटो देखने से आपको लगेगा कि आप सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन धुआं आपका परिवार झेल रहा है। यकीन मानिए धीरे-धीरे आपको अपनी सिगरेट पीने की आदत से चिढ़ होने लगेगी। कभी भी जल्दबाजी या आवेश में आकर सिगरेट छोड़ने का फैसला न करें। यदि आप तैश में आकर सिगरेट छोड़ने की कसम खाते हैं, तो यकीनन आपका दिमाग अगले ही पल कसम तोड़ने के बहाने तलाशने लगेगा। इसलिए सिगरेट छोड़ने का फैसला पूरे होश-ओ-हवास में करें।

सिगरेट को समय से जोड़े

अक्सर लोग जब खुश होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, दुःखी होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, टेंशन में होते हैं तो पीते हैं। सबसे पहले तो आपको सिगरेट की फ्रिक्सेंसि पर लगातार लगी पड़ेगी। आठ घंटे या दस घंटे में एक सिगरेट। यदि आप चैनस्मोकर हैं तो आठ घंटे

ऐशट्रे को साफ मत करिए

आप जितनी चाहे सिगरेट पीजिए, लेकिन अपनी ऐशट्रे को साफ मत करिए, ये आपको याद दिलाती रहेगी कि आपने कितनी सिगरेट पी हैं। यदि आप अलग-अलग जगहों पर सिगरेट पीते हैं, तो आप बुझी सिगरेट की बट अपने साथ घर ले आएँ और घर में एक गिलास में सारे बट डालकर रखें, ताकि आपको यह पी हुई सिगरेट की याद दिलाता रहे। जब भी आपके पास खाली समय हो आप इंटरनेट, अखबार या किताब में सिगरेट पीने के बारे में लेख जरूर पढ़ें। जिस दिन आप सिगरेट छोड़ने का मन बनाएँ, उसी दिन अपना सिगरेट का पुराना स्टॉक सबसे पिघल हटाएँ। सिगरेट की तलब लगे, जाकर सिर्फ एक सिगरेट लेकर आएँ और पीएँ। प्रतिदिन पी जाने वाली सिगरेटों की संख्या कम करें। हर बार सिर्फ आधी ही सिगरेट पीएँ। सिगरेट के किसी ऐसे ब्रांड को भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। यह भी आपको मदद करेगा।

पेट के कैंसर से बचा सकता है बैंगनी आलू

बैंगनी आलू को अपने भोजन में शामिल कर आप पेट के कैंसर से बच सकते हैं। बैंगनी आलू पेट के कैंसर के लिए जिम्मेदार स्टेम कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं तथा इस घातक बीमारी को फैलने से रोकते हैं। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में खाद्य विज्ञान के सहायक प्रोफेसर जयराज वानामाला ने बताया कि कैंसर का मुकाबला करने के लिए स्टेम कोशिकाओं पर हमला करना एक प्रभावी तरीका है।



आज सामान्य और सेहतमंद तरीके से बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आजकल का खानपान और व्यायाम के प्रति लापरवाही के चलते सामान्य डिलीवरी अब ना के बराबर हो गई है। इसी के चलते ज्यादातर महिलाओं को ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चों को जन्म देना पड़ता है। जो महिला के स्वास्थ्य को कमजोर कर देती है। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से डिलीवरी कराना चाहती है तो योगा के इन तीन आसान को नियमित रूप से करें।



पश्चिमोत्तानासन

यह आसन रिक्तियों के लिए भी लाभकारी है। यह आसन गर्भाशय से सम्बन्धी शरीर के सायुजाल को ठीक करता है। इससे गर्भावस्था के दौरान रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कम होगा। इससे तनाव कम होगा और मांसपेशियां लचीली होंगी।

पैर सीधे करके बैठ जाएँ और पंजों में हल्की दूरी रखें। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएँ और सांस छोड़ते हुए पंजों को फूँने की कोशिश करें। अधिक स्ट्रेस न लें और सांस सामान्य कर लें। दस तक गिने और फिर सीधी अवस्था में आ जाएँ। इसे अधिकतम तीन बार करें।

इस स्थिति में आरामदायक समय तक श्वास-प्रश्वास सामान्य रखते हुए रुकें। इसके बाद श्वास अन्दर लेते हुए हाथ तथा घड़ को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ तथा श्वास बाहर निकालते हुए हाथ नीचे ले जाएँ। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के बाद रीढ़ को पीछे झुकाने वाले किसी भी आसन का अभ्यास करना चाहिए।

सामान्य डिलीवरी के लिए हैं ये योगासन

तितली आसन

तितली आसन को गर्भावस्था के तीसरे महीने से कर सकते हैं। शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए यह आसन किया जाता है। यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के यूटेरस की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और कमर को मजबूत करता है। इसे करने से शरीर के निचले हिस्से का तनाव खुलता है।



तितली आसन करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़कर, तलवे मिला लें, यानी पैरों से नमस्ते की मुद्रा बननी चाहिए। इसके पश्चात दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए पैर के पंजे को पकड़ें और पैरों को ऊपर-नीचे करें। आपकी पीठ और बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस क्रिया को 15 से अधिक बार न करें। यदि इस क्रिया को करते वक़्त आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता हो तो इसे बिल्कुल भी न करें।

बद्ध कोणासन

बिना ज्यादा तकलीफ के सामान्य डिलीवरी करने के लिए गर्भवती रिक्तियों को बढ़ कोणासन करना चाहिए। इस आसन से प्रसव पीड़ा कम होती है।



समतल स्थान पर कंबल या अन्य कोई कपड़ा बिछाकर दोनों पैरों को सामने की ओर करके बैठ जाएँ। फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के पास ले आएँ और दोनों पैरों के तलवे आपस में मिलाएँ। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। पैरों की उंगलियों को दोनों हाथों से पकड़ लें और रीढ़ को सीधा रखें जैसे तितली आसन में बैठा जाता है। बाजू को सीधा करें और पैरों को ज्यादा से ज्यादा पास लाने का प्रयास करें जिससे आपका शरीर तन जाए।

यह इस आसन की प्रारंभिक स्थिति है। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे कमर से आगे इस प्रकार झुकें कि रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव बना रहे। प्रयास करें की आपका सिर जमीन से स्पर्श हो जाए। अगर ये संभव न हो तो अपनी टुड्डी को पैरों के अग्रगुंठे से सांस को सामान्य कर लें। अंत में सांस भरते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएँ। दो या तीन बार इस आसन का अभ्यास करें।

क्यों आते हैं खरटि

कई बार वायुमार्ग के पास अतिरिक्त टिश्यू जमा हो जाते हैं जिससे वायु के प्रवाह में रुकावट आती है। इससे सांस सामान्य रूप से नहीं आता और खरटि की समस्या शुरू हो जाती है। वहीं खुले मुँह से खरटि लेने का संबंध गले के टिश्यू से हो सकता है। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान भी गले में फटी टिश्यू जमा होने के कारण कुछ महिलाएँ खरटि लेती हैं। सर्दी या एलर्जी के कारण आने वाले खरटि अस्थायी होते हैं।



छोटी सांसें यानी ऑक्सीजन की कमी

खिलाड़ी व नियमित व्यायाम करने वालों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर नहीं जानते कि खून में पर्याप्त ऑक्सीजन का अच्छी फिटनेस से कितना गहरा संबंध है। शरीर में स्वस्थ कोशिकाएँ प्रोबिक होती हैं यानी उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिस तरह बिना ऑक्सीजन आग नहीं जलती, उसी तरह हमारी कोशिकाएँ भी बिना ऑक्सीजन ऊर्जाविहीन हैं। खून में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिमिया कहते हैं। ऐसा दमा, फेफड़े की बीमारी व शरीर में लोहातत्व की कमी पर भी होता है। सांसें छोटी आना, बेचैनी, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप और त्वचा का नीला पड़ना भी खून में ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा है। धमनियों में से खून के नमूने की जांच करके ऑक्सीजन का स्तर जांचा जाता है।

सेहत का मामला है

खून में पर्याप्त ऑक्सीजन होने से मेटाबॉलिक दर में भी वृद्धि होती है। वह दर, जिससे शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। खून में पर्याप्त ऑक्सीजन से कोशिकाओं में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते। इतना ही नहीं, शरीर की एरोबिक क्षमता अधिक होने पर हृदय मजबूत होता है, फेफड़े ढंग से काम करते हैं और इयुनिटी में सुधार होता है। अधिक श्रम के व्यायाम के लिए श्वसनतंत्र की मजबूती जरूरी है।

गहरे श्वास लेना है जरूरी

ऑक्सीजन सांस के जरिए शरीर में जाती है। हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का काम फेफड़े करते हैं। ऑक्सीजन फेफड़ों के पास से रक्त नलिकाओं तक पहुँचती है और उसके बाद खून के जरिए कोशिकाओं तक। ऑक्सीजन का सही स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी है गहरे श्वास लेना। अधिकतर रक्त नलिकाएँ फेफड़ों के निचले हिस्से में होती हैं। छोटे श्वास लेने पर हवा केवल फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक ही पहुँचती है।

खानपान से ऐसे बढ़ाएँ ऑक्सीजन

हरी सब्जियाँ जैसे चुकंदर, लहसुन, ब्रोकली, लेट्यूस, मूली व साँताफल का सेवन अधिक करें। फलों में स्ट्रॉबेरी व ऐवकाडो (रुचिरा) अधिक खाएँ। इसके अलावा केला, आलू व टमाटर भी एसिडिटी को कम करते हैं और खून में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं।



चुकंदर और लेट्यूस मिश्री से नाइट्रेट अधिक ग्रहण करते हैं। पौधों से मिलने वाले नाइट्रेट, स्टोर किए गए मीठ की तुलना में अधिक सेहतमंद हैं। इनमें एटीऑक्सीडेंट्स भी अधिक होते हैं। शरीर में पहुँच कर ये नाइट्रेट ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियमित होता है और कार्डियोविकुलर सिस्टम में सुधार होता है।

भरपूर पानी व कच्ची हरी सब्जियों का जूस पीएँ। यदि आपको अपनी सांसें असामान्य लगती हैं तो आप प्रतिदिन एक गिलास चुकंदर का जूस ले सकते हैं। इटवेल एरोबिक ट्रेनिंग में। यदि आप केवल चलते हैं तो इसे 40 मिनट की अवधि में पांच-पाँच मिनट के इंटरवल में बाँट लें। एक मिनट तेज गति से चलें और फिर चार मिनट धीमी गति से। ऐसा 5 से 6 बार दोहराएँ। श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नियमित वजन उठाएँ, जिसमें कंधे, पीठ और छाती के व्यायाम शामिल हैं। इनसे श्वास की प्रक्रिया में सुधार होता है। गहरे श्वास लें।

रेसिपी



आलू पोस्तो

सामग्री

6-7 मध्यम आलू, 1 मध्यम प्याज, 2 हरी मिर्च, पंचफोरन मसाला 1 छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1^{1/4} छोटा चम्मच नमक, 4 बड़े चम्मच पोस्ता दाना, 3 बड़े चम्मच तेल

विधि

प्याज का छिलका हटकाकर इसे धो लें। प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लें। हरी मिर्च का उदल हटा कर इसे धो लें। मिर्च को बारीक काट लें और अलग रखें। कटा प्याज: आलू को छीलकर इसे धो लें। अब हर आलू को 8 टुकड़ों में काट लें। कटे हुए आलू के टुकड़े: कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। गरम तेल में 1 छोटा चम्मच पंचफोरन मसाला डालें। जाम मसाले चटक जाएँ और भुन जाएँ तब इसमें कटी प्याज डालें। प्याज को गुलाबी होने तक भुनें। प्याज को भूनें तो 2-3 मिनट का समय लगता है। अब भूनी प्याज में कटे आलू डालें। आलू को अच्छे से मिलते हुए दो मिनट के लिए भुनें। अब इसमें नमक डालें और आलू को थोड़ा गलने दें। इस प्रक्रिया में लगभग 5-6 मिनट का समय लगता है। यहां आलू को आधा ही गलाना है। आलू और प्याज: अब आलू में हल्दी पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च डालें। अच्छे से मिलाएँ और आलू के गलने तक पकाएँ। हल्दी डालने के बाद: जब तक आलू गल रहे हैं आप थोड़ा सा पानी डालकर पोस्ता दाना को बारीक पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अब पोस्तो के पेस्ट को आलू में डालें। पोस्तो का पेस्ट डालने के बाद: पोस्तो के पेस्ट को आलू में अच्छे से मिलाएँ। अब एक चम्मच तेल डालें। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएँ। ढक्कन लगाकर धीमी आँच पर पोस्तो आलू को दो मिनट पकने दें। आलू पोस्तो: आँच बंद कर दें अब, आलू पोस्तो तैयार है परोसने के लिए। आप इस स्वादिष्ट आलू पोस्तो को रोटी, पूरी, या फिर चावल किसी के साथ भी परोस सकते हैं।

मेवे के लड्डू

सामग्री

बादाम, अखरोट, पेकन 1 कप, काजू 1/4 कप, कटे हुए, खजूर 1 कप, क्रेनबेरी 2-3 बड़े चम्मच, हरी इलायची 4, ब्राउन शक्कर 2 बड़े चम्मच, पानी 1 बड़ा चम्मच, घी 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक), कटे हुए मेवे



विधि

हरी इलायची की बाहरी छिलका निकालें और दानों को दरदरा फूट लें। मध्यम आँच पर कड़ाही में कटे हुए बादाम, पेकन, और अखरोट को 3-4 मिनट के लिए भुनें। अब इन्हें अलग रखें। काजू को भी मध्यम आँच पर 2 मिनट भूनें और अलग रखें। खजूर के बीज हटाकर इसे बारीक काट लें। फिर से कड़ाही को गरम करें और इसमें दो बड़े चम्मच ब्राउन शुगर और एक चम्मच पानी गरम करें। जब शक्कर पिघल जाए और अच्छे से पानी के साथ मिल जाए तो इसमें कटे हुए खजूर को डालें। 2 मिनट में ही खजूर पिघलना शुरू कर देगा। खजूर के थोड़ा पिघलते ही इसमें भुने अखरोट, काजू, पेकन, और बादाम डालें। अब इलेयची पाउडर डालें। इसे बराबर चलाते हुए मेवे को खजूर के साथ 2-3 भूनें। अब इसमें क्रेनबेरी डालें। अच्छे से सभी सामग्री को मिलाएँ। अब अगर आप चाहें तो जरा सा (1 छोटा चम्मच) घी दल सकते हैं इस मिश्रण में खुबू के लिए। अब आँच बंद कर दें और लड्डू के मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। अब लगभग 1 बड़ा चम्मच मिश्रण लें और उसे गोल लोम घूमते हुए लड्डू बांधें। इसी प्रकार सारे लड्डू बना लें। स्वादिष्ट मेवे के लड्डू अब तैयार हैं। आप इन लड्डू को हफ्ते भर फ्रिज के बाहर रख सकते हैं।